



Mehai Technology Limited

CIN: L74110RJ2013PLC066946

To,
BSE Limited
Compliance Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001
Maharashtra

Date: 06.09.2024

Ref: Security Code: 540730
Security Id: MEHAI

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper advertisement pursuant to Regulations 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Information regarding 11th Annual General Meeting and information on e-Voting.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of the public notice of the **11th Annual General Meeting** and information on e-voting, published today i.e., **6th September, 2024** in the following newspapers:

Name of the Newspaper	Language	Edition
Financial Express	English	English National Daily
Business Remedies	Hindi	Jaipur Edition

We request you to take the above information on records.

Thanking You

Yours Faithfully,
for **Mehai Technology Limited**

JUGAL KISHORE BHAGAT
Digitally signed by JUGAL KISHORE BHAGAT
Date: 2024.09.06 16:18:42 +05'30'

Jugal Kishore Bhagat
Managing Director
DIN:02218545

Encl: As above

बिजनेस रेमेडीज

जयपुर। शुक्रवार 6 सितम्बर, 2024

आईटी मंत्रालय 125 शुरुआती स्टार्टअप को प्रदान करेगा फंडिंग और मेंटरशिप

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (आईएनएस)। आईटी मंत्रालय ने अपने स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के दूसरे समूह की घोषणा की, जिसमें संभावित एक्सेलेरेटर के माध्यम से चयनित और समर्थित 125 प्रारंभिक स्टार्टअप को फंडिंग सहायता और मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि (समृद्ध) के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर है। पहले समूह में, 12 राज्यों से 22 प्रस्तावों को ओपन कॉल के माध्यम से चुना गया था। इन एक्सेलेरेटर ने फिर एक बहु-स्तरीय स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्वास्थ्य-तकनीक, शिक्षा-तकनीक, कृषि-तकनीक, उपभोक्ता-तकनीक, वित्तीय-तकनीक, सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (सास) और स्थिरता के क्षेत्रों में से प्रत्येक में 5-10 स्टार्टअप का चयन किया। दूसरा समूह सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत संभावित एक्सेलेरेटर के माध्यम से 125 स्टार्टअप का चयन और समर्थन किया जाएगा, ताकि 300 स्टार्टअप को विकसित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि वह राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (एनपीएसपी)-2019 के तहत भारत के सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के विकास के लिए काम कर रहा है। अगस्त 2021 में शुरू किए गए इस समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य 4 साल में 300 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को 99 करोड़ रुपये का समर्थन देना है। इस योजना का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्ट-अप हब और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर : पीएम मोदी

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गति और पैमाने के साथ किये गये कार्यों से भारत को पिछले 10 साल में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ाने में मदद मिली है। इसके साथ देश 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल करने करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव में अपने वीडियो संदेश में कहा, "देश ने पिछले कुछ साल में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाये हैं। हम नवीकरणीय बड़े कदम उठाये हैं। हम नवीकरणीय ऊर्जा में पेरिस प्रतिबद्धताओं को हासिल करने वाले जी-20 में पहला देश थे।"



उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण यह संभव हो पाया है। मोदी ने कहा, "पिछले दस वर्षों में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ गई है। यह गति और पैमाना हमें 2030 तक 500 गीगावाट (एक गीगावाट बराबर 1,000 मेगावाट) हरित ऊर्जा क्षमता हासिल करने में भी मदद करेगा।" मोदी ने यह भी सुझाव दिया कि हरित ऊर्जा निवेश में असेंजुलन को दूर करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की मदद के लिए विनिर्माण और प्रौद्योगिकी को

लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है, अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को सशक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि सौर परिवेश के विकास के लिए हाथिए पर रहने वाले समुदायों और युवाओं को शामिल करना महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा के महत्व को समझाने के लिए वेदों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "वेदों की रचना हजारों साल पहले की गई थी। वेदों के सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक सूर्य के बारे में है। आज भी, लाखों भारतीय योजना इसका जाप करते हैं। दुनियाभर में कई संस्कृतियां अपने तरीके से सूर्य की अराधना करती हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में सूर्य से संबंधित त्योहार भी मनाये जाते हैं।" उन्होंने कहा कि यह

अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ लाता है। यह एक ऐसा महोत्सव है जो हमारी पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने में मदद करेगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का दो दिन का अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव बृहस्पतिवार को शुरू हुआ। पीएम मोदी ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) 2015 में एक छोटे से रूप में शुरू हुआ था। यह उम्मीद और आकांक्षा का क्षण था। आज, यह नीति और कार्रवाई को प्रेरित करने वाले एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है।" इतने कम समय में आईएसए के सदस्यों की संख्या 100 देशों तक पहुंच गई है।

व्रत उपवास आपका विश्वास

दशकों से विश्वसनीय फलहारी उत्पादों के निर्माण

एगमार्क साबुदाना • साबुदाना पापड़ मखाना • एगमार्क सेलम हल्दी पाउडर नारियल पाउडर • फलहारी आटा एवं विभिन्न प्रकार के मीलेट्स (श्रीघान्य)

www.sachamoti.net | +91-9442605753

Please Visit For Recipe: <https://youtube.com/@sabutrade>
For Online Portal: <https://sabuonline.com>

सिंगापुर की आने वाले वर्षों में भारत में बड़ी राशि निवेश करने की योजना: पीयूष गोयल

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। विदेश करने को तैयार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और चार देशों के बृहस्पतिवार को कहा कि सिंगापुर भारत में अबतक लगभग 150 अरब डॉलर (लगभग 12 लाख करोड़ रुपये) का निवेश कर चुका है और यह देश आने वाले वर्षों में उस राशि का संभवतः पांच गुना



ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके तहत भारत को अगले 15 साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है।

भारत में 18 प्रतिशत यूनिकॉर्न स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं : वित्त मंत्री

बिजनेस रेमेडीज/चेन्नई (आईएनएस)। भारत में महिलाएं कॉरपोरेट क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसकी असर है कि मौजूदा समय में स्टार्टअप और फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी क्षेत्र के 111 यूनिकॉर्न (वैल्यूएशन एक अरब डॉलर से अधिक) में से 18 प्रतिशत का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से यह बयान दिया गया।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट कंपनियों में बीते एक दशक में महिला निदेशकों की संख्या में तीन गुना का इजाफा हुआ है। 2014 में देश में एक्टिव कंपनियों में महिला निदेशकों की संख्या 2.58 लाख थी, जो कि अब अगस्त 2024 तक बढ़कर 8.83 लाख हो गई है। इसमें 3.4 गुना का इजाफा देखने को मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगे कहा कि तमिलनाडु में महिला निदेशकों की संख्या भी इस दौरान 4.3 गुना बढ़ी है।



राज्य की एक्टिव कंपनियों में अगस्त 2024 में महिला निदेशकों की संख्या 68,000 थी, जो कि 2014 में 15,550 थी। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। आम बजट 2024-25 में महिलाओं के वेलफेयर और उन्हें सशक्त बनाने वाली स्कीमों के लिए 3.10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2013-14 में 97,134 करोड़ रुपये था। रिसर्च फर्म डेलॉयट की ओर से की

गई स्टडी का हवाला देते हुए सीतारमण ने कहा कि निपटी 50 कंपनियों में भी महिला निदेशकों की संख्या बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है, जो कि 2019 में 18 प्रतिशत थी। उन्होंने आगे कहा कि नौसेना में जून 2023 से महिलाओं के प्रवेश की शुरुआत हुई थी। तीनों सेनाओं में महिलाओं की भर्ती की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा, 'आईएफएफ (इंडियन एयर फोर्स) की सभी शाखाओं और स्ट्रीम में महिलाओं की भर्तियां की जा रही हैं।'

शानदार टेक्नोलॉजी. आकर्षक डिजाइन.

इस गणेश चतुर्थी NEXA की बोल्ड प्रीमियम हैचबैक Baleno पर पाएं आकर्षक ऑफर्स.

CREATE. INSPIRE.

3 years 100 000 km WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

THE NEW AGE
BALENO
TECH GOES BOLD

गणेश चतुर्थी के अवसर पर NEXA कार बुक करें और पाएं ₹ 52 100** तक के लाभ

नए जमाने की Baleno के बारे में और जानकारी पाएं

JAIPUR: NEXA VIKJA SHIKAR ROAD (SATNAM MOTOCORP PH: 9116639102), NEXA GOPALPURA TONK ROAD (PREM MOTORS PH: 8058499999), NEXA MANSAROVAR (AURIC MOTORS PH: 8929207442, 7075270752), NEXA AJMER ROAD (VIPUL MOTORS PH: 9116032607), NEXA QUEENS ROAD (KP AUTOMOTIVES PH: 7230030501), NEXA RAJAPARK (KTL AUTOMOBILE PH: 9257022731), NEXA SANGANER - TONK ROAD (SANGA AUTONATION MOTORS PH: 8233638222), AJMER: NEXA MAKHUPURA (NAVNEET MOTORS PH: 911616501, 911616502), NEXA VAISHALI NAGAR (AJMER AUTO PH: 9694541201, 9314391004), ALWAR: NEXA MANHAR VILLA (FORTUNE CARS PH: 7230029424), BHILWADA: NEXA BHIWADI CENTRAL (FORTUNE CARS PH: 9214794316), BHILWARA: NEXA SUKHADIA CIRCLE (CHAMPION CARS PH: 8081133333), BIKANER: NEXA JAIPUR ROAD (AURIC MOTORS PH: 7230081665), JHUNJHUNU: NEXA JHUNJHUNU CENTRAL (AURIC MOTORS PH: 7412087314), JODHPUR: NEXA CHOPASNI ROAD (LMJ SERVICES PH: 7230013811), NEXA SHASTRI CIRCLE (AURIC MOTORS PH: 8875012697), JALORE: NEXA BHINMAL BYPASS CIRCLE (SHRI KRISHNA AUTOSALES PH: 9929244403), PALLI: NEXA PALLI SUMERPUR ROAD (LMJ SERVICES PH: 7230013801), KOTA: NEXA AERODROME CIRCLE (BHATIA & COMPANY PH: 9414079018), NEXA BARAN ATRU ROAD (BHATIA & COMPANY PH: 7300077090), JHALAWAR: NEXA JHALAWAR SOUTH (BHATIA & COMPANY PH: 9116108619), NAGAUR: NEXA BIKANER ROAD NAGAUR (SHRI MANGALAM AUTO PH: 6399292929), BHARATPUR: NEXA BHARATPUR CENTRAL (TM MOTORS PH: 9785838888), SIKAR: NEXA SIKAR JAIPUR ROAD (JAMU AUTOMOBILES PH: 9694412777), SRI GANGANAGAR: NEXA GANGANAGAR NORTH (AURIC MOTORS PH: 7412092301), UDAIPUR: NEXA GOVERDHAN VILAS (TECHNOY MOTORS PH: 8306300695), NEXA CENTRAL UDAIPUR (NAVNEET MOTORS PH: 7665016580), BANSWARA: NEXA BANSWARA CENTRAL (NAVNEET MOTORS PH: 9376240719), RAJASAMAND: NEXA RAJNAGAR (TECHNOY MOTORS PH: 9251988300), DAUSA: NEXA JAIPUR AGRA BYPASS DAUSA (VIPUL MOTORS PH: 9829560109), CHITTORGARH: NEXA CHITTORGARH CENTRAL (TECHNOY MOTORS PH: 9116007250).

1800-200-[6392], 1800-102-[NEXA] पर हमसे संपर्क करें और ऑनलाइन बुक करने के लिए www.nexaexperience.com पर जाएं.

सर्वे लागू, बसोडि गैर मॉडल और किसिम पर निर्भर करते हुए ऑफर बदल सकते हैं. सभी ऑफर 30th September 24 या स्टॉक रहने तक लागू है. **सभी ऑफर आपके लिए केवल रेवेसा डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं. मार्केट सुनुकी स्मार्ट फाइनेंस अब सर्वोत्तम भारत में उपलब्ध है. मार्केट सुनुकी सर्वोत्तम केवल चुनिंदा शहरों में उपलब्ध है. मार्केट सुनुकी बिना कोई पूर्व सूचना दिए किसी भी समय ऑफर वापस लेने का निर्णय ले सकती है. रचनात्मक प्रवृत्ति. *एयरबैग सहित सुरक्षा विशेषताओं के कामकाज पर विवरण के लिए, कृपया स्वामी के मैन्युअल का संदर्भ लें. *3 साल या 100,000 किमी, जो भी पहले आए.

आज खुलेगा 'विज़न इन्फ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड' का आईपीओ

निवेशक 10 सितम्बर तक कर सकेंगे कंपनी के आईपीओ में आवेदन



बिजनेस रेमेडीज। पुणे आधारित 'विज़न इन्फ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड' मुख्य रूप से सड़क निर्माण मशीनों के कारोबे के साथ-साथ इन मशीनों का व्यापार और मरम्मत सेवा में संलग्न प्रमुख कंपनी है। कंपनी द्वारा अतिरिक्त उपकरणों की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी का आईपीओ आज खुलकर 10 सितम्बर को बंद होगा।

यह करती है कंपनी: विज़न इन्फ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई थी और यह हवाई अड्डों, स्मार्ट शहरों, सिंचाई, इमारतों और कारखानों, खनन, रेलमार्ग आदि के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के सेवा पोर्टफोलियो में सड़क निर्माण मशीनों के कारोबे के साथ-साथ इन मशीनों का व्यापार और मरम्मत भी शामिल है।

वित्तीय प्रदर्शन : वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने कुल राजस्व 162.54 करोड़ रुपये एवं 5.14 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने



IPO Date	September 6, 2024 to September 10, 2024
Listing Date	[.]
Face Value	₹10 per share
Price Band	₹155 to ₹163 per share
Lot Size	800 Shares
Total Issue Size	6,516,000 shares (aggregating up to ₹106.21 Cr)
Fresh Issue	6,516,000 shares (aggregating up to ₹106.21 Cr)
Issue Type	Book Built Issue IPO
Listing At	NSE SME
Share holding pre issue	17,300,000
Share holding post issue	23,816,000

कुल राजस्व 305.10 करोड़ रुपये एवं 9.27 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2023 में 368.89 करोड़ रुपये का राजस्व एवं 9.18 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 349.65 करोड़ रुपये का राजस्व एवं 26.68 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी के वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है कि कंपनी का राजस्व एवं कर पश्चात शुद्ध लाभ वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्चिन 7.63 फीसदी दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 15.43 रुपये का ईपीएस अर्जित किया है।

आईपीओ के संबंध में जानकारी: 'विज़न इन्फ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड' का आईपीओ एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर आज खुलकर 10 सितम्बर 2024 को बंद होगा। कंपनी द्वारा बुक बिल्ट इश्यू प्रणाली से 10 रुपये फेसवैल्यू के 65,16,000 शेयर 155 से 163 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जारी कर रहे हैं। आईपीओ का मार्केट लॉट साइज 800 शेयरों का है। आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

नोट: यह लेख निवेश सलाह नहीं है।

'कर्णिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड' ने वाराणसी में आयोजित गारमेंट फेयर में लिया हिस्सा, मिले ऑर्डर

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा आधारित 'कर्णिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड' गारमेंट सेगमेंट में विशेषकर किड्स वियर बनाने और निर्यात करने वाली प्रमुख कंपनी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित गारमेंट फेयर में 2 से 3 सितंबर 2024 तक लिया हिस्सा लिया है। वहां कंपनी को करीब 40 लाख रुपये के ऑर्डर हासिल हुए हैं।

यह करती है कंपनी: वर्ष 2017 में 'कर्णिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड' का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। कर्णिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे पहले करपी इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता था, गारमेंट्स का निर्माण और निर्यात करती है। कर्णिका इंडस्ट्रीज बच्चों के सभी प्रकार के गारमेंट्स जैसे शॉर्ट्स, जॉगर्स, कैपरी, टीज, रोम्पर्स,

स्त्रीपसूट, पजामा, विंटर वियर, शिशु परिधान आदि बनाती है। कंपनी के पास डिजाइनिंग, नमूना तैयार करने, गुणवत्ता निरीक्षण के लिए अच्छी तरह से स्थापित विनिर्माण इकाइयां हैं, जो इस्त्री व कपड़ों की पैकिंग समेत सभी आवश्यक हार्ड-

टेक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित हैं और जो एक आधुनिक विनिर्माण इकाई के लिए आवश्यक हैं। कंपनी अपने उत्पादों को कर्णिका ब्रांड और उप-श्रेणियों जैसे कर्णिका केयर, कर्णिका कूल, कर्णिका क्यूब, कर्णिका लाइफ, कर्णिका की, कर्णिका क्लब के तहत बेचती है। कंपनी की प्रति माह निर्माण क्षमता 8.5 लाख उत्पाद निर्माण करने की है। 2 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल पर कंपनी की स्थापित है। कंपनी की ताकत में फैशन और

ग्राफिक डिजाइनर की दक्ष टीम, उच्च प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के काम इन हाउस करना, प्रत्यक्ष खरीद, अंतिम स्तर पर उत्पाद भेजने से पहले जांच करना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के तहत निर्माण करना और सख्त कोड आफ कंडक्ट के साथ मजबूत ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को अपनाना है।

आईपीओ के मायने: गौरतलब है कि गत वर्ष सितंबर माह में कंपनी का आईपीओ एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर आया था। तब कंपनी ने 76 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 3299200 शेयर जारी कर 25.07 करोड़ रुपये जुटाए थे। वर्तमान में कंपनी के शेयर का भाव 283 रुपये चल रहा है। इस आधार पर कह सकते हैं कि कंपनी ने आईपीओ के बाद से निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है।

विजय सोलवैक्स लिमिटेड

CIN : L15142RJ1987PLC004232

पंजी. कार्यालय : भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर- 301001 (राजस्थान)

फोन नं. 0144-2332358, मोबाइल नं. 9929103729

Website: www.vijaysolvex.com, E-mail: cs_lodha@dataoils.com

36वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंदी एवं दूरस्थ ई-मतदान की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को प्रातः 10:30 बजे से भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-301001 (राजस्थान) में आयोजित की जायेगी, जिसमें 36वीं ए.जी.एम. की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतर्गत पुस्तक 24 सितंबर, 2024 से 29 सितंबर, 2024 दोनों दिनों सहित तब तक वार्षिक वित्तीय विवरणों के उद्देश्य से बंद रहेंगे। ए.जी.एम. की सूचना तथा वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां (पीडीएफ) ऐसे सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी / डिजिटल आईडी सिस्टम के पास पंजीकृत है। ए.जी.एम. की सूचना तथा 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को सूचित पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं। कम्पनी ने ए.जी.एम. की सूचना तथा वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण कार्य को 5 सितंबर, 2024 को पूरा कर लिया है। वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ए.जी.एम. की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.vijaysolvex.com पर उपलब्ध है। दूरस्थ ई-मतदान से सम्बंधित कम्प्यूटरीकरण उपकरणोंद्वारा सदस्यों को ई-मेल/प्रेषित की जा चुकी है।

- ए.जी.एम. की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किया जायेगा।
- दूरस्थ ई-मतदान आरंभ होने की तिथि एवं समय सुबह, 26 सितंबर, 2024 प्रातः 10:00 बजे
- दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय रात, 29 सितंबर, 2024 सायं 5:00 बजे
- 29 सितंबर, 2024 सायं 5:00 बजे के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं की जायेगी।
- ए.जी.एम. में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए कट ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2024 है।
- जो व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के सदस्य बने हों तथा कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे सभा की सूचना में उपलब्ध विस्तृत प्रक्रिया को कम्पनी की वेबसाइट www.vijaysolvex.com तथा सी.डी.एस.एल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है, का अनुसरण कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य ई-मतदान के लिये सी.डी.एस.एल. में पहले से ही पंजीकृत हो तो वे दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिये अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- ए.जी.एम. में मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जायेगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-मतदान द्वारा अपना मतदान नहीं किया है, वे सभा में अपने मनाधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- चिन सदस्यों ने सभा से पूर्व ई-मतदान द्वारा अपना मतदान किया हो, वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- चिन सदस्यों को नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर, 2024 को सदस्यों / लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे, वे दूरस्थ ई-मतदान अथवा मतदान द्वारा सभा में मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिये अधिकृत होंगे।
- 36वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना अद्योक्तित वेबसाइटों www.vijaysolvex.com और www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
- दूरस्थ ई-मतदान से सम्बंधित किसी भी पूछताछ / शिकायतों के लिये सदस्य / लाभ भोगी स्वामी निम्न पते पर संपर्क करें:

जे.पी. लोधा

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

विजय सोलवैक्स लिमिटेड

भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-301001 (राजस्थान)

फोन नं. 0144 2332358, मोबाइल नं. 9929103729

E-mail: cs_lodha@dataoils.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com

विजय सोलवैक्स लिमिटेड के लिये

हस्ता/-

जे.पी. लोधा

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्या E 4714

जीएसएम फोइल्स लिमिटेड की अगस्त

माह में बिक्री बढ़ी 141 फीसदी

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। महाराष्ट्र के पालघर आधारित बिस्टर फॉइल और एच्यूमीनियम फार्मा फॉइल निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी जीएसएम फोइल्स लिमिटेड ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि कंपनी का अगस्त, 2024 में सेल्स वॉल्यूम गत वर्ष के समान अवधि के मुकाबले 141 फीसदी अधिक रहा है। अगस्त, 2024 में सेल्स वॉल्यूम 107,290,984/- रुपये दर्ज किया गया है जबकि गत वर्ष के समान अवधि में यह 44,496,209/- रुपये दर्ज किया गया था। अप्रैल 24 से अगस्त 24 तक कंपनी का सेल्स वॉल्यूम 408,146,012/- रुपये दर्ज किया गया है।

यह करती है कंपनी: अप्रैल 2019 में स्थापित, जीएसएम फॉइल्स लिमिटेड बिस्टर फॉइल्स और एच्यूमीनियम फार्मा फॉइल्स बनाती है, जिसे स्ट्रिप फॉइल्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग कैप्सूल और टैबलेट जैसी फार्मास्यूटिकल दवाओं की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। ये फॉइल प्राथमिक पैकेजिंग सामग्री हैं जो दवा के सीधे संपर्क में आती हैं, इसलिए उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए

अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। कंपनी ने ठाणे, वर्साई, महाराष्ट्र में सफायर बिल्डिंग में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित की है, जिसमें भूतल और 3 मंजिलों में 7,973 वर्ग फुट का क्षेत्र शामिल है। विनिर्माण सुविधाएं निर्बाध विनिर्माण प्रक्रियाओं, परेशानी मुक्त उत्पादन, गुणवत्ता परीक्षण, अनुसंधान, भंडारण और पैकेजिंग का समर्थन करने के लिए आवश्यक उपकरणों, मशीनरी और सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित हैं। कंपनी आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी है। घरेलू बाजार में 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ग्राहकों के साथ कंपनी की पूरे भारत में उपस्थिति है।

आईपीओ: मैं 2024 में कंपनी का आईपीओ एनएसई इमर्ज पर प्लेटफार्म पर आया था। तब कंपनी ने 32 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 34,40,000 शेयर जारी कर 11.01 करोड़ रुपये जुटाए थे। आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी श्रेणी शेयर्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। वर्तमान में कंपनी का शेयर 80.2 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

नोट: यह लेख निवेश सलाह नहीं है।

क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ 9 सितंबर, 2024 को खुलेगा

बिजनेस रेमेडीज/सुंभई। क्रॉस लिमिटेड का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) सोमवार, 9 सितंबर,



2024 को खुलेगा। कुल ऑफर साइज में 250 करोड़ रुपये तक का फ्रेश इश्यू और 250 करोड़ रुपये तक का बिक्री ऑफर शामिल है। एंकर निवेशक बोली की तारीख बुधवार, 6 सितंबर, 2024 को होगी और बोली प्रस्ताव बुधवार, 11 सितंबर, 2024 को बंद हो जाएगा। प्रति शेयर भाव 228 से 240 रुपये तय किया गया है।

बोली न्यूनतम 62 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 62 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है। कंपनी ने फ्रेश इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए पूंजीगत खर्च आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए करने का प्रस्ताव किया है, जिसका अनुमानित मूल्या

रूपये 70 करोड़ है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए कुछ बकाया उधारों का पूरा या आंशिक हिस्सा का भुगतान, या पूर्वभुगतान, अनुमानित रूप से रुपये 90 करोड़। इसके अलावा रुपये 30 करोड़ वर्किंग कैपिटल की जरूरतों का वित्तपोषण के लिए तथा शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग की जायेगी। बिक्री के प्रस्ताव में सुधीर राय द्वारा कुल मिलाकर रुपये 168 करोड़ तक के इक्विटी शेयर और अनीता राय द्वारा कुल मिलाकर रुपये 82 करोड़

तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं। इक्विटी शेयरों की पेशकश कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दिनांक 2 सितंबर, 2024 के माध्यम से की जा रही है, जो कंपनी रजिस्ट्रार, डारखंड, रांची (आरओसी), सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के पास बरखिल किया गया है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ऑफर के प्रयोजनों के लिए, नामित स्टॉक एक्सचेंज एनएसई होगा। इक्विटी शेयरों के वित्तपोषण के लिए ऑफर का बुक रविवार लीड मैनेजर है।

MANOMAY
A MOMENT OF STYLE

मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड
CIN: L18101RJ2009PLC028647
पंजीकृत कार्यालय: 32, हीरा प्ला माक्रेट पुर रोड, भीलवाड़ा - 311001 (राजस्थान) भारत, फ़ोन- 01482-246983
ईमेल: ykladdha@hotmail.com वेबसाइट: www.manomaytexindia.com

शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक आम बैठक, मतदान और पुस्तक समापन के लिए सदस्यों को सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्ध बहिरंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) अधिनियम) के प्रावधान के अनुसार कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 32, हीरा प्ला माक्रेट, पुर रोड, भीलवाड़ा-311001 राजस्थान (भारत) पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संबोधित करने के लिए भौतिक कोरम की उपस्थिति के साथ बुधवार, 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे (आइएसटी) आयोजित की जायेगी। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम बुकने का नोटिस 05 सितंबर, 2024 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है, जिनके ईमेल पते कम्पनी डिजिटल आईडी सिस्टम के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस की प्रतियां के साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट <http://www.manomaytexindia.com/annual-report.html> के साथ <https://www.bseindia.com> व <https://www.nseindia.com> पर भी उपलब्ध हैं। निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और परस्परौं तरफ़ी से मतदान प्रक्रिया के संयोजन के लिए जांचकर्ता के रूप में मैनेज अर.के. जैन एंड एसोसिएट्स के प्रिंसिपलिंग कंपनी सचिव श्री अर.के.जैन को नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार यह नोटिस भी दिया गया है (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी के अधिनियम 42 (रिजिस्ट्रार बहिरंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर दासता पुस्तक 21 सितंबर 2024 से 27 सितंबर, 2024 तक बंद रहेंगे (कोई दिन सम्मिलित)। कंपनी ने अगामी वार्षिक आम बैठक में मतदान के लिए प्राप्त सदस्यों का निर्धारण करने के उद्देश्य से रिजॉर्डेड लिमिटेड/ऑफ-रेकॉर्ड के रूप में 20 सितंबर 2024 तक की है। कम्पनी श्री शिकार/पत्र के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड के कंपनी सचिव, श्री अशोक, श्री श्री शान, पंजीकृत कार्यालय: 32, हीरा प्ला माक्रेट, पुर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान - 311001 भारत से ईमेल: cs@manomaytexindia.com या फ़ोन: 01482-246983 संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेश से
मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड के लिए
कृते/-

(कामेश्वर श्री श्री शान)

कंपनी सचिव

दिनांक: 05.09.2024

स्थान: भीलवाड़ा (राज.) भारत

जैन मार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 47/10, किरणपथ मानसरोवर, जयपुर राजस्थान-302020
दूरभाष:- 0294-2441686,2441777, फैक्स:- +91-294-2440581
ईमेल:- jainmarmo_udr@yahoo.com, वेबसाइट:- www.jainmarmo.com
CIN:- L14101RJ1981PLC002419

कंपनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जैन मार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 43वीं (तीसरी) वार्षिक आम बैठक नोटिस में बताए अनुसार व्यवसाय करने के लिए सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 10.00 बजे 47/10, किरणपथ, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान - 302020स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अधीन कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 और सेबी के अधिनियम 44 संशोधित (सूचीबद्धता बहिरंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), अधिनियम, 2015 के अनुसार कंपनी के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और व्यवसाय ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। एजीएम सचिव ('नोटिस ई-वोटिंग') के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा नेक्वल सिक्योरिटीज डिजिटली लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जायेगी। कंपनी ने वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ अपनी 43वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम नोटिस') का नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट भेज दी है, यह कंपनी के उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल द्वारा भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते कम्पनी/आरटीडी/ और डिजिटली पंजीकृत (सीडी) के साथ पंजीकृत हैं और उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jainmarmo.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी 43वीं वार्षिक आम बैठक के अरोजन के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेक्वल सिक्योरिटीज डिजिटली लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। इस संबंध में, ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर ई-वोटिंग में भाग लेने के लिए कंपनी द्वारा शेयरधारक के डीमैट खाते/फॉलियो नंबर को नामांकित किया गया है।

ई-वोटिंग की शुरुआत	26 सितंबर, 2024 प्रातः 09:00 बजे
ई-वोटिंग की समाप्ति	29 सितंबर, 2024, सायं 05:00 बजे
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार यह नोटिस भी दिया गया है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर दासता पुस्तक का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेगा।)	
निदेशक मंडल के आदेशों के अधीन जैन मार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए कृते/- सिद्धार्थ जैन प्रबंध निदेशक डीआरएन:01275806	
स्थान: जयपुर	
दिनांक: 05 सितंबर 2024	

S R G SECURITIES FINANCE LIMITED
322, S.M.LODHA COMPLEX, NEAR SHASTRI CIRCLE, UDAIPUR (RAJASTHAN)-313001
CIN: L67120RJ1995PLC009631; Website: www.srgfin.com
Email: srgsecurities@gmail.com, Ph No: 0294-2561882

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that 29th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Monday 30th September, 2024 at 12:15 pm at the Registered office of the Company at 322 S.M. Lodha Complex Near Shastri Circle Udaipur Rajasthan 313001 to transact the Business as set out in the notice of the 29th AGM which has been dispatched to all the shareholders of the Company along with Annual Report 2023-24 on 05.09.2024. The Company is pleased to offer remote e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) to all the shareholders of the Company in respect of all the items to be transacted at 29th Annual General Meeting.

The Notice of 29th AGM along with instructions for e-voting and Annual Report are available on the following websites. Company's website: www.srgfin.com; BSE Limited: www.bseindia.com and NSDL: www.evoting.nsdl.com.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules are given hereunder:

- A person whose name is recorded in the Register of Members/ beneficial owners on Monday, September 23, 2024 (cut-off date) shall be entitled to vote through remote e-voting or through Ballot Paper at the AGM.
- Date and time of commencement of remote e-voting: 27-09-2024 at 09:00 AM.
- Date and time of end of remote e-voting and the e-voting shall not be allowed beyond 29-09-2024 at 05:00 pm.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member after the dispatch of the Notice of AGM and holds share on cut-off date, may obtain the User ID and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.com or srgsecurities@gmail.com.
- Those shareholders, who do not opt to cast their vote through remote e-voting, may cast their vote through Ballot paper at the venue of the AGM. Shareholders who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM, however they are not entitled to vote again in the AGM.
- In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of the website www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800 1020 980/ 1800 224 430 or Contact: NSDL at 022-2489454 or e-mail evoting@nsdl.com. For any queries/grievances, in relation to e-voting, Members may contact Ms. Priya Chhaplot, Company Secretary: Tel: 0294-2412609 and email srgsecurities@gmail.com at 322, S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur Rajasthan-313001.
- Mr. Amit Jalan, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the voting process in fair and transparent manner.
- Members who have not registered their e-mail address, so far, are requested to register their e-mail address with their Depository Participant RTA.
- Further Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing obligations and Disclosures requirement) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday 23rd September 2024 till Monday 30th September, 2024 (both days inclusive) as Annual Book Closure for the purpose of Annual General Meeting.

Date: 05.09.2024 For S R G Securities Finance Limited
Place: Udaipur Sd/-
Priya Chhaplot (Company Secretary) M No A48227

MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

Registered office: B-40, Sudarshapura Industrial Area (extension); Jaipur-302006,India
Corporate Office: Unit 708, 7th Floor, ECO Centre, Block- EM-4,
Sector-V, Salt Lake City Kolkata, West Bengal-700091
CIN: L74110RJ2013PLC066946, Tel: 033-46025842
Email: cs@mehai.co.in, Website: www.mehaitech.co.in

NOTICE OF 11th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting of the Members of Mehai Technology Limited will be held on Thursday, 26th September, 2024 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 20

BR

सम्पादकीय

दशहरा व दिवाली पर काजू और बादाम हो सकते हैं महंगे

इस बार दशहरा या दिवाली पर काजू कतली का डिब्बा या मेवे की पोटली गिपट करना महंगा पड़ सकता है। बीते चार महीने में ही काजू की कीमत में 80 फीसदी तक बढ़ोतरी हो गई है। वहीं बादाम भी 15 फीसदी महंगा हो गया है। देश में काजू-बादाम जैसे सूखे मेवों का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है। इसलिए इन मेवों को विदेशों से मंगाना पड़ता है। यदि सिर्फ काजू की बात करें तो यहां काजू की खपत पूरा करने के लिए 50 फीसदी से ज्यादा नट्स आयात करना होता है। यही हालत बादाम की भी है। कारोबारियों के अनुसार

भारत में सूखे मेवों की खपत बढ़ी है, जबकि उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। ऊपर से भारतीय रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा हो रहा है। इस वजह से आयात महंगा पड़ रहा है। सूखे मेवे के कारोबारियों का कहना है कि दिवाली तक इन मेवों की कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत की और वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय बाजार में इनकी मांग बढ़ने के बावजूद आयात में कमी आई है। जहां भारत दुनिया में काजू का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहां जितनी काजू की खपत होती है, उतनी पैदावार है नहीं। इसलिए भारत अपनी काजू की लगभग 50 प्रतिशत जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। दुनिया में भारत काजू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। मतलब कि हम बाहर से कच्चा काजू मंगा कर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस उद्योग के अनुमानों के अनुसार, काजू कतली, स्नैक्स, बिस्कुट जैसी मिठाइयों और करी जैसे खाना पकाने के खाद्य पदार्थों में लगभग 60 प्रतिशत काजू का उपयोग किया जाता है। हालांकि मिठाई या बिस्कुट या खाना पकाने में दो टुकड़ा और चार टुकड़ा काजू का उपयोग होता है। टुकड़ा काजू संपूर्ण काजू के मुकाबले सस्ता मिलता है। काजू की कमी और खपत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। अक्टूबर तक काजू की कीमतों में 5-10 प्रतिशत की और वृद्धि हो सकती है। काजू की कीमतों में तेजी के कारण बादाम की कीमतों में भी तेजी आई है। जल्द ही कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। वर्तमान में अधिकांश हलवाई (मिठाई निर्माता) काजू की कीमतों में वृद्धि को खुद झेल रहे हैं। हालांकि काजू की आपूर्ति की स्थिति तंग रहने की उम्मीद है, इसलिए कीमतों में वृद्धि करके लागत में कुछ वृद्धि उपभोक्ताओं पर डालनी पड़ सकती है।

BR

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी विशेष लेख व्यक्तिगत सौच के आधार पर हैं।
-संपादक

शिक्षा को समर्पित अनिल बोर्दिया

राजस्थान में लंबे समय तक शिक्षा विभाग में अपनी विशेष पहचान रखने वाले अनिल बोर्दिया प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। अनिल बोर्दिया का जन्म 1 मई, 1934 को इंदौर में हुआ। ये पांच वर्ष की उम्र में अपने पिता केसरी लाल बोर्दिया (दादा भाई) के साथ उदयपुर गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्या भवन, उदयपुर में हुई, जहां उन्होंने हाईस्कूल में रहकर पढ़ते की। नवाचारित प्रयोगों वाली शिक्षा ग्रहण की। महाराणा भूपाल सिंह कॉलेज से इंटर करने के बाद आगे की महाविद्यालयी शिक्षा दिल्ली स्थित सेंट स्टीफनस कॉलेज से प्राप्त की। वे कुछ समय स्टीफनस कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर रहे और वहीं से उनका चयन 1957 में आईएएस में हुआ। प्रशिक्षण अवधि में प्रथम पदस्थापन के रूप में इन्हें हनुमानगढ़ में बीडीओ के पद पर कार्य किया। इसके बाद विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए

ये 1964 से 68 तक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के निदेशक भी रहे। निदेशक पद पर रहते हुए उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए, जो आज भी शिक्षा विभाग में याद किए जाते हैं, जैसे शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां बनाना, शिक्षा विभाग की मैगजीन शिपिरा का प्रकाशन, शिक्षा अधिकारियों की माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस करना व विद्यालयी योजना बनाना आदि।

वर्ष 1974 में बोर्दिया केन्द्र में शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्त पर गए और 1977 में राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के डायरेक्टर जनरल बने। उस समय उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा



व साक्षरता के लिए नीति-निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य किया। बोर्दिया राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनेस्को की संस्था आईआईपी (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन एंड प्लानिंग, पेरिस) में 1980-1982 के मध्य शिक्षक रहे जहां उन्होंने अपने नवाचारों से संपूर्ण विश्व के शिक्षार्थियों में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी।

1982 में राजस्थान सरकार में पुनः विकास आयुक्त के रूप में पदस्थित हुए और महिला विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। फलस्वरूप 1983 से राजस्थान में महिला विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। शिक्षा के प्रति आपके समर्पण, रुझान तथा शिक्षा में गहरी पैठ के मद्देनजर ही राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्वकाल में पी.वी. नरसिम्हा राव, शिक्षा मंत्री ने बोर्दिया को राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए अतिरिक्त शिक्षा सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी। फलस्वरूप इनके अतिरिक्त शिक्षा सचिव रहते हुए 1986 में नई शिक्षा नीति पर आम सहमति बनी और उसे संसद में मंजूरी मिली। 1987 में ये शिक्षा सचिव बने और मई, 1992 तक अर्थात् सेवानिवृत्ति तक इस पद पर कार्य करते रहे।

एक प्रशासक, शिक्षाविद् व नवाचारों से युक्त विभिन्न पदों पर अनेक कार्य करते बोर्दिया ने कई प्रयोजनों के निर्माण में

महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें महिला समारम्भ, राजस्थान में शिक्षाकर्मी योजना, बिहार शिक्षा योजना, लोक जुमिबश परियोजना आदि सम्मिलित हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपने यूनेस्को के डिप्टी डायरेक्टर जनरल पद को ठुकराते हुए राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत के आग्रह पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु लोक जुमिबश योजना के अध्यक्ष का पद स्वीकार किया और जून 1999 तक इस पद पर आसीन रहे। इस

दौरान लोक जुमिबश में शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए जो नवाचार किए गए। वे राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहे गए और आज भी लोक जुमिबश का कार्य सर्वशिक्षा अभियान के लिए नीव के पत्थर का काम कर रहा है। राजकीय सेवा में रहते हुए बोर्दिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा जगत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जैसे 1976-1982 के मध्य यूनेस्को हेमबर्ग में वाइस चेरमैन के पद पर कार्य करने का, 1990-1992 के मध्य जिनेवा स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एज्युकेशन के अध्यक्ष पद पर रहना आदि। लोक जुमिबश छोड़ने के बाद आपने यह महसूस किया कि 11-20 वर्ष आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप आपने 10वीं पंच वर्षीय योजना से अगली दो पंच वर्षीय योजनाओं में युवाओं की शिक्षा व नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और वर्ष 2001 में दूसरा दशक नाम की एक संस्था के अध्यक्ष बने। वे मृत्युपर्यंत तक इस पद पर बने रहे। दूसरा दशक परियोजना राजस्थान के सात जिलों के 9

विकास खंडों में आज भी कार्यरत है। आपका योगदान आरटीई यानि शिक्षा का अधिकार कानून के निर्माण में तो है ही मगर इस एक्ट की क्रियान्वयन समिति के भी आप अध्यक्ष रहे हैं।

इन सभी महत्वपूर्ण योगदानों के फलस्वरूप आपको 1999 में यूनेस्को के सर्वोच्च एवीसीना गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया गया। यह सम्मान पाने वाले सभी व्यक्ति या तो राष्ट्राध्यक्ष रहे या किसी देश के एंबेसेडर रहे। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले बोर्दिया एकमात्र व्यक्ति हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए यूनेस्को द्वारा महात्मा गांधी पदक से भी सम्मानित किया गया। ऐसे व्यक्तित्व को नेल्सन मंडेला ने भी दक्षिणी अफ्रीका की शिक्षा नीति बनाने के लिए भी आमंत्रित किया।

आप 6 भाई-बहन हैं और भाइयों में सबसे बड़े हैं। आपने 1960 में ओटिमा जो यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी रही, से शादी की। आपकी दो संतानें हैं। मैत्रेयी दास जो आईएएस रहीं और आईएएस से सेवानिवृत्ति के बाद वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में कंसल्टेंट हैं। आपका एकमात्र पुत्र श्रेयस लंदन स्थित मॉर्गन स्टेनली इंडेस्टमेंट बैंक में वाइस चेरमैन के पद आसीन है।

आपने खराब स्वास्थ्य के चलते रिविवर 2 सितम्बर, 2012 की रात्रि में लगभग 10 बजे अंतिम श्वास ली। ऐसे व्यक्तित्व को जो अपने आप में एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान से कम नहीं हैं। हम नमन करते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

उमन्ग बाथी
@ बिजनेस रेमेडीज

ईश्वर-तुल्य गुरु जीवन को नया घाट देते हैं



ललित गर्ग

ईश्वर माना गया है। पश्चिमी देशों में गुरु का कोई महत्व नहीं है, यहां विज्ञान और विज्ञापन का महत्व है

‘आचार्य देवोभक्तः का स्पष्ट अनुदेश भारत की पुनीत परंपरा है और वेद आदि ग्रंथों का अनुपम आदेश है। ऐसी मान्यता है कि हरिश्चर्यानी एकादशी के बाद सभी देवी-देवता चार मास के लिए सो जाते हैं। इसलिए हरिश्चर्यानी एकादशी के बाद पद्य प्रदर्शक गुरु की शरण में जाना आवश्यक हो जाता है। परमात्मा की ओर संकेत करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु की सख्ति, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे भी भ्रम्य से मिला जाए उसका तो जीवन कृतार्थता से भर उठता है। क्योंकि गुरु बिना न आत्म-दर्शन होता और न परमात्म-दर्शन। गुरु भवसागर पार पाने में नायिक का दायित्व निभाते हैं। वे हितचिंतक, मार्गदर्शक, विकास प्रेरक एवं किञ्चिन्नाशक होते हैं। उनका जीवन शिष्य के लिये आदर्श बनता है। उनकी सीख जीवन का उद्देश्य बनती है। अनुभवी आचार्यों ने भी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए लिखा है- गुरु यानी वह अज्ञान को अंधकार में डीप, समुद्र में द्वीप, मरुस्थल में वृक्ष और हिमखण्डों के बीच अगिन की उममा को सार्थकता प्रदान कर सके। हमारी प्राचीन गुरुकुल परम्परा एवं गुरुकुल संस्कृति ने महर्षि, तपस्वी, ब्राह्मण, चक्रवर्ती सम्राट और जगद्गुरु तक के सुयोग्य महपुरुष उपलब्ध कराए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने भी गुरु महिमा को सर्वोपरि माना है। जनकपुरी में ऋषि विश्वामित्र की सेवा इसका प्रमाण है। भारतीय संस्कृति में गुरु आश्रय रहित व्यक्ति को अर्थात् हेय माना गया है। हमारे देश के ऋषि-महर्षि, तीर्थंकर और महात्मा

गौतम बुद्ध, महावीर जैसी दिव्य विभूतियों ने गुरु पद से अपने उपदेशों से उदार भवना स्थापित की। भौतिकवादी युग में गुरु के प्रति आस्था में न्यूनता आई है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में अशांति, असुरक्षा और मानवीय गुणों का अभाव हो रहा है। गुरु पूर्णमा के मोके पर वे लोग परेशान होते हैं जिनके कोई गुरु नहीं हैं कि वे किसकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे लोगों की चिंता का समाधान परन्तु भारत में सखियों से गुरु का महत्व रहा है। यहां की माटी एवं जन्मजन्म में रह दियाने वाले दीपक होते हैं ईश्वरतुल्य गुरु, कि वयोंकि गुरु न हो तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन दिखयोग? गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही जीवन को उज्ज्वल बनाते हैं।

‘आचार्य देवोभक्तः का स्पष्ट अनुदेश भारत की पुनीत परंपरा है और वेद आदि ग्रंथों का अनुपम आदेश है। ऐसी मान्यता है कि हरिश्चर्यानी एकादशी के बाद सभी देवी-देवता चार मास के लिए सो जाते हैं। इसलिए हरिश्चर्यानी एकादशी के बाद पद्य प्रदर्शक गुरु की शरण में जाना आवश्यक हो जाता है। परमात्मा की ओर संकेत करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु की सख्ति, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे भी भ्रम्य से मिला जाए उसका तो जीवन कृतार्थता से भर उठता है। क्योंकि गुरु बिना न आत्म-दर्शन होता और न परमात्म-दर्शन। गुरु भवसागर पार पाने में नायिक का दायित्व निभाते हैं। वे हितचिंतक, मार्गदर्शक, विकास प्रेरक एवं किञ्चिन्नाशक होते हैं। उनका जीवन शिष्य के लिये आदर्श बनता है। उनकी सीख जीवन का उद्देश्य बनती है। अनुभवी आचार्यों ने भी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए लिखा है- गुरु यानी वह अज्ञान को अंधकार में डीप, समुद्र में द्वीप, मरुस्थल में वृक्ष और हिमखण्डों के बीच अगिन की उममा को सार्थकता प्रदान कर सके। हमारी प्राचीन गुरुकुल परम्परा एवं गुरुकुल संस्कृति ने महर्षि, तपस्वी, ब्राह्मण, चक्रवर्ती सम्राट और जगद्गुरु तक के सुयोग्य महपुरुष उपलब्ध कराए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने भी गुरु महिमा को सर्वोपरि माना है। जनकपुरी में ऋषि विश्वामित्र की सेवा इसका प्रमाण है। भारतीय संस्कृति में गुरु आश्रय रहित व्यक्ति को अर्थात् हेय माना गया है। हमारे देश के ऋषि-महर्षि, तीर्थंकर और महात्मा

गौतम बुद्ध, महावीर जैसी दिव्य विभूतियों ने गुरु पद से अपने उपदेशों से उदार भवना स्थापित की। भौतिकवादी युग में गुरु के प्रति आस्था में न्यूनता आई है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में अशांति, असुरक्षा और मानवीय गुणों का अभाव हो रहा है। गुरु पूर्णमा के मोके पर वे लोग परेशान होते हैं जिनके कोई गुरु नहीं हैं कि वे किसकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे लोगों की चिंता का समाधान परन्तु भारत में सखियों से गुरु का महत्व रहा है। यहां की माटी एवं जन्मजन्म में रह दियाने वाले दीपक होते हैं ईश्वरतुल्य गुरु, कि वयोंकि गुरु न हो तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन दिखयोग? गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही जीवन को उज्ज्वल बनाते हैं।

‘आचार्य देवोभक्तः का स्पष्ट अनुदेश भारत की पुनीत परंपरा है और वेद आदि ग्रंथों का अनुपम आदेश है। ऐसी मान्यता है कि हरिश्चर्यानी एकादशी के बाद सभी देवी-देवता चार मास के लिए सो जाते हैं। इसलिए हरिश्चर्यानी एकादशी के बाद पद्य प्रदर्शक गुरु की शरण में जाना आवश्यक हो जाता है। परमात्मा की ओर संकेत करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु की सख्ति, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे भी भ्रम्य से मिला जाए उसका तो जीवन कृतार्थता से भर उठता है। क्योंकि गुरु बिना न आत्म-दर्शन होता और न परमात्म-दर्शन। गुरु भवसागर पार पाने में नायिक का दायित्व निभाते हैं। वे हितचिंतक, मार्गदर्शक, विकास प्रेरक एवं किञ्चिन्नाशक होते हैं। उनका जीवन शिष्य के लिये आदर्श बनता है। उनकी सीख जीवन का उद्देश्य बनती है। अनुभवी आचार्यों ने भी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए लिखा है- गुरु यानी वह अज्ञान को अंधकार में डीप, समुद्र में द्वीप, मरुस्थल में वृक्ष और हिमखण्डों के बीच अगिन की उममा को सार्थकता प्रदान कर सके। हमारी प्राचीन गुरुकुल परम्परा एवं गुरुकुल संस्कृति ने महर्षि, तपस्वी, ब्राह्मण, चक्रवर्ती सम्राट और जगद्गुरु तक के सुयोग्य महपुरुष उपलब्ध कराए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने भी गुरु महिमा को सर्वोपरि माना है। जनकपुरी में ऋषि विश्वामित्र की सेवा इसका प्रमाण है। भारतीय संस्कृति में गुरु आश्रय रहित व्यक्ति को अर्थात् हेय माना गया है। हमारे देश के ऋषि-महर्षि, तीर्थंकर और महात्मा

राशि अनुसार मनाएं गणेश चतुर्थी

गणेश चतुर्थी भारत देश का एक प्रमुख त्यौहार है। यूं तो यह त्यौहार भारत के कई क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है फिर भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस पर्व को लेकर अति उत्साह देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ माना जाता है, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी जिसे दिनगण चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी बच्चाओं को दूर करने वाले और ज्ञान के साथ ही समृद्धि देने वाले देवता हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए 10 दिन तक पृथ्वी पर वास करते हैं और उनके भक्त लोग गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को अपने घर में विराजित करके साल भर सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं।

गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाएगा : गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:02 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानि कि 7 सितंबर, शनिवार शाम को 5 बजकर 38 मिनट पर होगा। ऐसी स्थिति में उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानि कि शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करें और दिनगण चतुर्थी व्रत का पालन करना भी शुभ फल देने वाला मना जाता है। 7 सितंबर को गणेशजी की स्थापना सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर बाद पीले दो बजे तक की जा सकती है। इस समय स्थिर लग्न भी रहेगी और स्थिर लग्न में गणपति जी की स्थापना बेहद शुभ परिणाम और समृद्धि में स्थिरता देने वाली होगी।

गणेश चतुर्थी वाले दिन बनने वाले शुभ योग : 7 सितंबर को गणेश जी की स्थापना वाले दिन शुभ चतुर्थी का पर्व भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:02 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानि कि 7 सितंबर, शनिवार शाम को 5 बजकर 38 मिनट पर होगा। ऐसी स्थिति में उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानि कि शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करें और दिनगण चतुर्थी व्रत का पालन करना भी शुभ फल देने वाला मना जाता है। 7 सितंबर को गणेशजी की स्थापना सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर बाद पीले दो बजे तक की जा सकती है। इस समय स्थिर लग्न भी रहेगी और स्थिर लग्न में गणपति जी की स्थापना बेहद शुभ परिणाम और समृद्धि में स्थिरता देने वाली होगी।

गणेश चतुर्थी वाले दिन बनने वाले शुभ योग : 7 सितंबर को गणेश जी की स्थापना वाले दिन शुभ चतुर्थी का पर्व भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:02 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानि कि 7 सितंबर, शनिवार शाम को 5 बजकर 38 मिनट पर होगा। ऐसी स्थिति में उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानि कि शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करें और दिनगण चतुर्थी व्रत का पालन करना भी शुभ फल देने वाला मना जाता है। 7 सितंबर को गणेशजी की स्थापना सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर बाद पीले दो बजे तक की जा सकती है। इस समय स्थिर लग्न भी रहेगी और स्थिर लग्न में गणपति जी की स्थापना बेहद शुभ परिणाम और समृद्धि में स्थिरता देने वाली होगी।

चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा : गणेश चतुर्थी यानि कि भाद्र करना शुभ नहीं माना जाता। जो व्यक्ति इस रात्रि को चंद्रमा का दर्शन करते हैं उनको झूठ कलंक या मिथ्या आरोप लगता है ऐसी मान्यता है। इस वर्ष चतुर्थी का प्रारंभ 6 तारीख को और इसका समापन 7 तारीख को हो रहा है इसलिए दोनों दिन ही चंद्र दर्शन से बचना चाहिए।

गणेश जी की पूजा विधि

भगवान गणेश की पूजा विधि बेहद सामान्य है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भक्तों को लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले उनकी मूर्ति को स्थापित करने के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल आदि से स्नान कराएं फिर उनको पोंछकर सिंदूर लगाएं, उसके बाद में जलेऊ चढ़ाकर उनको वस्त्र आदि पहनकर फूल माला आदि से विधिवत श्रृंगार करें और गणपतिजी को मोदक, मोसमी फल, पान के पत्ते, सुपारी, लोग आदि अर्पित करें और धूप, दीप आदि दिखाने के बाद गणेशजी के मंत्रों का जाप गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानि कि शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करें और दिनगण चतुर्थी व्रत का पालन करना भी शुभ फल देने वाला मना जाता है। 7 सितंबर को गणेशजी की स्थापना सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर बाद पीले दो बजे तक की जा सकती है। इस समय स्थिर लग्न भी रहेगी और स्थिर लग्न में गणपति जी की स्थापना बेहद शुभ परिणाम और समृद्धि में स्थिरता देने वाली होगी।

मूर्ति स्थापित करते समय सावधानी जैसा कि सर्वविदित है कि गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। यहां पर गणेश जी की मूर्ति को लेकर भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है जैसे कि गणेशजी की जो सुन है वह अगर बाई तरफ होती है तो विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इनको वाममुखी गणपति कहा जाता है। इसी प्रकार से गणेश जी की मूर्ति को हमेशा बाई तरफ मुखा में ही लेना चाहिए। शस्त्रों के अनुकार बैठे हुए गणपति ध्वज का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसी मूर्ति घर में स्थापित करने से हमेशा समृद्धि बनी रहती है और रुके हुए कार्य में भी प्रगति देखने को मिलती है। गणेश जी की मूर्ति के साथ ही कलश की स्थापना पूर्व दिशा में करनी चाहिए। आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते समय अगर मूषक को भी उनके साथ में स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थिति में भक्तों को विशेष शुभ फल प्राप्त होगा।

गणेश चतुर्थी पर ज्योतिषीय उपाय



डॉ योगेश त्यास, ज्योतिषाचार्य (टॉपर), नेट (साहित्य एवं ज्योतिष) पीएचडी (फिलिज-ज्योतिष) कावेरी पद-मानसरोवर, (जयपुर) Website : www.astrologeryogesh.com Mob No : 8058169959

आईए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर किन ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से आपको अपने कष्टों में कमी और धन संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी।

कर्ज या धन संबंधित समस्या के समाधान के लिए गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाकर गणेश अर्धशीर्ष का पाठ करें। पूजन के बाद घी और गुड़ काय को रिक्लार और समर्थय के अनुसार गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को दान करें। ऐसा करने से कर्ज की परेशानी दूर होती है और धन आगम के रास्ते खुलते हैं। यदि घर में कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना करते हुए गणेश जी को मालपुत्र का भोग लगाने से विवाह में आ रही परेशानी दूर होती है। अगर पुत्र के विवाह में कोई परेशानी देखने को मिल रही है तो उसके द्वारा पीले रंग की मिठाई का भोग लगाने पर वैवाहिक परेशानियां दूर होती हैं और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। व्यक्ति के द्वारा सर्व कष्ट निवारण हेतु सप्ताहन से बने गणेश जी की स्थापना और उनका पूजन करने पर भी बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। किसी भी जातक द्वारा उसके भग्योदय एवं वैवाहिक परेशानी के निवारण हेतु मोती के गणेश जी स्थापित करने पर शीघ्र ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भग्य में वृद्धि और गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान गणेश को पूजन के समय सिंदूर का रितक लगाकर उन पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए।

जो जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की परेशानियों को कम करने के लिए गणेश चतुर्थी पर धखी को चारा अवश्य खिलाना चाहिए।

जातक को शुभ संबंधित परेशानी से मुक्ति के लिए घर में मूंगे के गणेश जी की स्थापना करके उनका पूजन करना चाहिए।

धन के संघर्ष और धन में वृद्धि हेतु व्यक्ति को अपने घर या व्यवसायिक स्थल पर पहले के गणेशजी की स्थापना करनी चाहिए।

कन्या को विवाह हेतु हल्दी के गणेशजी की स्थापना करके विवाह होने तक प्रत्येक बुधवार को उन्हें पीले रंग की वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। घर में सर्व कष्ट निवारण हेतु जातक को अपने घर के मुख्य द्वार पर वास्तु की दिशा के अनुसार उस गृह से संबंधित रंग के गणेश जी की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का घर दक्षिण मुखी है तो उसे मुख्य द्वार पर मूंगे से बने गणेशजी लगाने चाहिए।

राशि अनुसार गणेश जी की मूर्ति का रंग और भोग

मेष राशि : मेष राशि के लोग गणेशजी की पूजा में लाल वस्त्र पहनकर गणपति को रोजाना गुड़ का भोग लगाएं। आपको अपने घर में लाल रंग के गणेशजी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। आप उन्हें लाल रंग के वस्त्र, अनार, लाल गुलाब और 11 दूर्वा अर्पित करें।

मिथुन राशि : मिथुन राशि के लोग हरे रंग के वस्त्र पहनकर गणपति जी को हरे रंग के मोदक का भोग लगाएं। आपको अपने घर में गणपति जी की हरे रंग की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और आप लगातार उन्हें हरे रंग के वस्त्र, मूंग के लड्डू, हरी इलायची, हरे फूल और पान का भोग लगाएं।

कर्क राशि : कर्क राशि के लोग सफेद रंग के वस्त्र पहनकर रोजाना गणेशजी को नारियल के लड्डू का भोग लगाएं। आपको घर में गणेश जी की सफेद रंग की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, आप उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें और प्रसाद में मोदक और चानस से बनी मिठाई का भोग लगाएं।

सिंह राशि : सिंह राशि के लोग पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर गणेशजी को मोतीचूर के लड्डू से भोग लगाएं। आप घर में लाल रंग के गणपति की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें लाल रंग के कपड़े अर्पित

करें। कपड़ों के साथ-साथ उन्हें गुड़ से बनी मिठाई, खजूर और कनेर के फूल अर्पित करें।

कन्या राशि : कन्या राशि के लोग गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर गणेशजी को दूर्वा के 21 जोड़े चढ़ाएं। आप अपने घर में हरे रंग से बने गणपति की मूर्ति लेकर आए, साथ ही उन्हें हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। भगवान को मूंग दाल के लड्डू, हरे फूल, दूर्वा और पान का भोग लगाएं।

तुला राशि : तुला राशि के लोग सफेद वस्त्र पहनकर भगवान गणेशजी को 5 नारियल अर्पित करें। आपको अपने घर में नीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इसी के साथ उन्हें सफेद वस्त्र, लड्डू, सफेद फूल, इत्र और केलें का भोग लगाएं।

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि के लोग लाल रंग के वस्त्र पहनकर गणपति को लाल पेड़े का भोग लगाएं। आपको अपने घर में लाल रंग के गणपति की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें सिंदूरी रंग के वस्त्र, गुड़ के लड्डू, अनार, लाल पुष्प और खजूर अर्पित करें।

धनु राशि : धनु राशि के लोग हरे पीले के वस्त्र पहनकर गणेशजी को बेसन के लड्डूओं का भोग लगाएं। आप घर में पीले रंग के गणेशजी की प्रतिमा को विराजमान कर उन्हें पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, मोदक, केलें और पीले फल अर्पित करें।

मकर राशि : मकर राशि के लोग बैंगनी या नीले रंग के वस्त्र पहनकर गणेशजी को पान, सुपारी, इलायची, इत्र और दूर्वा अर्पित करें। आप अपने घर में नीले रंग के गणपति प्रतिमा लेकर आए। उन्हें नीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और उन्हें तिल के लड्डू, किशमिश, सिंदूर और सफेद पुष्प चढ़ाएं। आपको घर में नीले रंग की गणपति प्रतिमा को लाना चाहिए। इसी के साथ भगवान को नीले रंग के वस्त्र, चोया, हरे फूल, सफेद पुष्प और किशमिश अर्पित करें।

मीन राशि : मीन राशि के लोग पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर गणेशजी को केसर और शहद का भोग लगाएं। आपको घर पर गहरे पीले रंग के गणपति की मूर्ति को लाना चाहिए साथ ही उन्हें पीले रंग के कपड़े अर्पित करें। उन्हें पीले फूल, फल, बेसन के लड्डू और बादाम का भोग लगाएं।

नेटः ज्योतिष फलदायक न होकर फल सूचक है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी योग्य ज्योतिर्विद् से संपूर्ण कुंडली के परामर्श करने के बाद ही किसी सार्थक निर्णय पर पहुंचना उचित माना जाता है।

लेख

सदस्यता कूपन



(केवल डाक या ई-मेल से प्राप्त करने के लिए)

अवधि 1 वर्ष
अंक 358
सदस्यता शुल्क 1050

E-mail: remediesbusiness@gmail.com

नाम:
पता:
.....पिनकोड.....
फोन:..... मो.
डाफ्त/घेक का विवरण:

ई-मेल:

बिजनेस रेमेडीज प्राप्त करने के लिए सदस्यता शुल्क बैंक अकाउंट में जमा करायें या सदस्यता फार्म भरकर चैक/डीडी के साथ कार्यालय पर भिजवायें।
Bank Account:- Business Remedies
A/c No. 61233949765 Bank Name: SBI

पता- 63/118, हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020
फोन- 9166

सोना वायदा में रु.470 और चांदी वायदा में 1253 रुपये का उछाल: कूड ऑयल में रु.11 का सुधार

कॉटन-केंडी वायदा रु.120 बढ़ा: मेंथा तेल में नरमी: मेटल्स में मिश्र घटबढ़: कमोडिटी वायदाओं में 10767.49 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 49238.25 करोड़ रुपये का टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 6881.03 करोड़ रुपये का कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 17925 पॉइंट के स्तर पर

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई

देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 60007.62 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 10767.49 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 49238.25 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स सितंबर वायदा 17925 पॉइंट के स्तर पर कारोबार कर रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1012.25 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 6881.03 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अक्टूबर वायदा 71481 रुपये पर खूलकर, 71998 रुपये के दिन के उच्च और 71406 रुपये के नीचले स्तर पर पहुंचकर, 71466 रुपये के पिछले बंद के सामने 470 रुपये या 0.66 फीसदी की मजबूती के साथ 71936 रुपये प्रति 10

ग्राम पर आ गया। इनके अलावा गोल्ड-गिनी सितंबर वायदा 207 रुपये या 0.36 फीसदी की बढ़त के साथ 58051 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव से कारोबार हो रहा था। जबकि गोल्ड-पेटल सितंबर वायदा 26 रुपये या 0.37 फीसदी की मजबूती के साथ 7057 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव से कारोबार हो रहा था। सोना-मिनी सितंबर वायदा 71060 रुपये पर खूलकर, 72129 रुपये के दिन के उच्च और 71053 रुपये के नीचले स्तर पर पहुंचकर, 674 रुपये या 0.95 फीसदी की तेजी के संग 71727 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी सितंबर वायदा 82590 रुपये पर खूलकर, 82590 रुपये के दिन के उच्च और 82590 रुपये के नीचले स्तर पर पहुंचकर, 81337 रुपये के पिछले बंद के सामने 1253 रुपये या 1.54 फीसदी की मजबूती के साथ 82590 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी नवंबर वायदा 1021 रुपये या 1.22 फीसदी की



बढ़त के साथ 84671 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इन जिनसे के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1923.09 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स कूड ऑयल सितंबर वायदा 5851 रुपये पर खूलकर, 5902 रुपये के दिन के उच्च और 5841 रुपये के नीचले स्तर पर पहुंचकर, 11 रुपये या 0.19 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 5862 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि कूड ऑयल-मिनी सितंबर वायदा 8 रुपये या 0.14 फीसदी की मजबूती के साथ 5868 रुपये प्रति बैरल के भाव से कारोबार हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस सितंबर वायदा 179.8 रुपये पर खूलकर, 183.4 रुपये के दिन के उच्च और 178.3 रुपये के नीचले स्तर पर पहुंचकर, 180.6 रुपये

182.65 रुपये प्रति किलो बोला गया। इन जिनसे के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1923.09 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स कूड ऑयल सितंबर वायदा 5851 रुपये पर खूलकर, 5902 रुपये के दिन के उच्च और 5841 रुपये के नीचले स्तर पर पहुंचकर, 11 रुपये या 0.19 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 5862 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि कूड ऑयल-मिनी सितंबर वायदा 8 रुपये या 0.14 फीसदी की मजबूती के साथ 5868 रुपये प्रति बैरल के भाव से कारोबार हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस सितंबर वायदा 179.8 रुपये पर खूलकर, 183.4 रुपये के दिन के उच्च और 178.3 रुपये के नीचले स्तर पर पहुंचकर, 180.6 रुपये

के पिछले बंद के सामने 2.5 रुपये या 1.38 फीसदी की बढ़त के साथ 183.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी सितंबर वायदा 2.4 रुपये या 1.33 फीसदी की बढ़त के साथ 183.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 642.34 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिनसे के अलावा कूड ऑयल और कूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 795.27 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1127.82 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.66 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 5.80 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरस्ट सोना के वायदाओं में 20376 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 28407 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 5996 लोट और गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 118811 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 31434 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 47421 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 156723 लोट के स्तर पर था। कूड ऑयल के वायदाओं में 29330 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 52140 लोट के स्तर पर था।

हाई-टेक पाइप्स को 'IND A' क्रेडिट रेटिंग

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई



हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड, भारत में लीडिंग स्टील ट्यूब्स और पाइप्स मैनुफैक्चरर में से एक, गर्व से यह घोषणा करता है कि फिच (Fitch) द्वारा उसे लॉन्ग टर्म बैंक सुविधाओं के लिए IND A क्रेडिट रेटिंग और शॉर्ट टर्म बैंक सुविधाओं के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसबीसी (SVC) बैंक से संबंधित एक्सपोजर IND A1 रेटिंग दी गई है। रेटिंग कार्रवाई के पीछे का तर्क इस प्रकार बताया गया- फाइनेंशियल इंडर 24 में मजबूत कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ हाई-टेक पाइप्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फाइनेंशियल इंडर 24 में 13वें सालाना बढ़कर 26,993 मिलियन रुपये (फाइनेंशियल इंडर 23: अर्थात 23,858 मिलियन रुपये) हो गया, जिससे इसकी नेट सेल्स की मात्रा 21वें बढ़कर 3,91,087 मीट्रिक टन (MT; 3,54,000MT) हो गई। फाइनेंशियल इंडर 25 की पहली तिमाही में, कंपनी ने बताया कि सेल्स वॉल्यूम सालाना 45 प्रतिशत या 13

प्रतिशत तिमाही दर तिमाही बढ़कर 1,22,155 मेट्रिक टन (फाइनेंशियल इंडर 24 की चौथी तिमाही में- 1,07,721 मेट्रिक टन; फाइनेंशियल इंडर 24 की पहली तिमाही में- 84,429 मेट्रिक टन) हो गई। इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए, हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड के चेयरमैन, अजय कुमार बंसल ने कहा कि, हम इस रेटिंग को क्रिसिल(रेटिंग से हमारी मौजूदा क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेडेशन के रूप में देखते हैं। बढ़ी हुई रेटिंग हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है और हमारी चल रही मार्जिन एक्सपेंशन इनीशिएटिव का समर्थन करने के लिए हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। हम जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मंस देने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड को बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जिगली ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपनी मौजूदगी को बनाया सशक्त : 2024 के अंत तक 40 एक्सपीरिंस सेंटर खोलने का लक्ष्य

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

कोसो फर्स्ट लिमिटेड की ओर से भारत के प्रमुख टेक-इनेबलड ओमनी-चैनल पेट केयर ब्राण्ड जिगली ने लुधियाना में अपने 25वें एक्सपीरिंस स्टोर के लॉन्च के साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपनी मौजूदगी को और सशक्त बना लिया है। ब्राण्ड ने 2024 के अंत तक 40 एक्सपीरिंस सेंटरों के साथ अपनी ऑफलाईन मौजूदगी को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस साल के दौरान 75-80 फीसदी ऑफलाईन मौजूदगी बढ़ाने के लक्ष्यों के मद्देनजर कंपनी ने यह विस्तार किया है।

लुधियाना का नया सेंटर स्पेशलटी वैट केयर सर्विसज, रूमिंग एवं स्पा तथा गुणवत्तापूर्ण पेट प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराएगा। सराभा नगर में स्थित यह एक्सपीरिंस सेंटर पेट पैरेंट्स के लिए सुलभ होगा, जो अपने पेट्स के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और उत्पादों

की उम्मीद रखते हैं। स्पेशलटी वैट केयर सर्विसज के साथ-साथ यह एक्सपीरिंस सेंटर सर्जरी, वैक्सिनेशन, डायग्नोसिस, एक्स-रे, हेल्थ चैक-अप और उपचार सहित सभी सेवाएं प्रदान करेगा। अपनी विस्तार योजनाओं के तहत जिगली इस साल उत्तर एवं दक्षिण भारत में अपनी मौजूदगी को सशक्त बनाने पर ध्यान केन्द्रित करेगा, जिसके तहत दिल्ली, द्वारका एक्सप्रेसवे, जलंधर, अमृतसर में नए एक्सपीरिंस सेंटर तथा बैंगलुरु एवं हैदराबाद में नए स्टोर्स खोले जाएंगे। आज जिगली की 12 शहरों-चण्डीगढ़, पंचकुला, जयपुर, देहरादून, गुरुग्राम, इंदौर, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली और लुधियाना सहित देश भर में सशक्त मौजूदगी है। पेट हेल्थ सेस में अपने सेवाओं को सशक्त बनाते हुए जिगली दिल्ली में दो 24/7 सेंटर भी संचालित कर रहा है, जो कैलाश कॉलोनी और जनकपुरी में स्थित हैं। इस विस्तार पर अपने

विचार व्यक्त करते हुए पंकज पोद्दार, रूपा सीईओ, कोसो फर्स्ट एवं जिगली ने कहा, कि क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण पेट केयर सर्विसज एवं प्रोडक्ट्स की मांग को देखते हुए हमने यह विस्तार किया है। पेट पैरेंट्स के लिए स्पेशलटी वैट केयर सेवाओं को सुलभ बनाते हुए हम देश भर में पेट हेल्थ सिस्टम को सशक्त बनाना चाहते हैं। हम लगातार विकसित हो रहे हैं और देश में पेट केयर उद्योग के समग्र विकास में योगदान देते हुए पेट पैरेंट्स की जिम्मेदार कम्प्यूनिटी का निर्माण करने के लिए प्रयासरत हैं। जिगली पेट केयर सर्विसज एवं प्रोडक्ट्स की सम्पूर्ण रेंज उपलब्ध कराता है। इनके एक्सपीरिंस सेंटर में पेट सर्विसज के लिए विशेष सेक्शन हैं, जहां वेटेरीनेरी, डायग्नोस्टिक्स सर्विसज, रूमिंग, स्पा, सैलून आदि सभी सुविधाएं हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि आपका पेट न सिर्फ अच्छे महसूस करे बल्कि सबसे अच्छे दिखे भी।

इन्डीड के अध्ययन में सामने आया कि इन त्योहारों पर मौसमी भर्ती बढ़ेगी: टियर 2 और 3 शहर रहेंगे आगे

बिजनेस रेमेडीज/बंगलुरु

जहाँ भारत में त्योहारों की तैयारी जोर-शोर से चल रही है, वहीं सभी व्यवसायों द्वारा भर्ती किए जाने में भी तेजी आई है। ग्लोबल मैचिंग एवं ह्यारिंग प्लेटफॉर्म, इनडीड के आँकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल मौसमी नौकरियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इनडीड के मुताबिक भर्तियाँ केवल मेट्रो शहरों में नहीं हो रही हैं, बल्कि इस वृद्धि का नेतृत्व टियर 2 और टियर 3 शहर कर रहे हैं।

भौगोलिक परिवर्तन: टियर 2 और टियर 3 शहरों का उदय : मुंबई, बैंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख मेट्रो शहरों में पिछले साल के मुकाबले भर्तियाँ 18 से 20 प्रतिशत बढ़ीं। वहीं नागपुर, जयपुर, बडोदरा, कोच्चि,



विजाग, मदुरई, लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़, इंदौर, कोयम्बटूर, सूरत, भुवनेश्वर, और भोपाल में भर्तियों में 22 से 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। छोटे शहरों में हो रही यह वृद्धि कई कारणों से है। कंपनियाँ बाजार में अपनी पहुँच बढ़ाने और नए ग्राहकों तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए वो टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं क्योंकि यहाँ ग्राहकों की आय बढ़ने और आर्थिक स्थिति में सुधार आने के साथ वो उपभोक्ता सामानों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में इंटरनेट का विस्तार होने और डिजिटल एडॉप्शन बढ़ने के साथ ई-कॉमर्स, रिटेल

और लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने और मौसमी कार्यबल की ज्यादा मांग का निर्माण करने में समर्थ बनी हैं, ताकि मांग में होने वाली मौसमी वृद्धि को संभाला जा सके। शशि कुमार, हेड ऑफ सेल्स, इनडीड इंडिया ने कहा, 'टियर 2 क्षेत्रों में बढ़ी हुई भर्ती से इन बाजारों की क्षमता प्रदर्शित होती है। त्योहारों का मौसम भारत में व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है, और हमें इस दौरान मौसमी भर्तियों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनियाँ ग्राहकों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की तैयारी कर रही हैं। बढ़ते हुए

उद्योगों जैसे ईकॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, क्रिक कॉमर्स में भर्तियाँ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो आज के उपभोक्ताओं के व्यवहार और जरूरतों से जुड़े हुए हैं। इससे हमें भारत में भविष्य के नौकरी बाजार का एक अनुमान मिलता है।' ई-कॉमर्स इस ट्रेड में सबसे आगे है, जहाँ मांग में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह वृद्धि ऑनलाइन शॉपिंग में हुई तेज वृद्धि और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा डिलीवरी एगिजक्यूटिव्स एवं वेयरहाउस स्टाफ की जरूरत के कारण है। इसके बाद लॉजिस्टिक्स का स्थान आता है, जिसमें कंपनियाँ अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही हैं ताकि स्मूथ सप्लाय चैन के लिए परिवहन, वेयरहाउसिंग, और डिलीवरी गतिविधियों में मदद मिल सके। ग्राहकों की बढ़ती संख्या

और उनकी सहभागिता के साथ रिटेल सेक्टर में भी तेजी आ रही है, जिसके कारण खासकर इन-स्टोर एगिजक्यूटिव्स और कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स की मांग बढ़ रही है। इसी प्रकार, क्रिक कॉमर्स में भी डिलीवरी कर्मियों और फुलफिलमेंट स्टाफ की मांग 11 प्रतिशत बढ़ी है, जिससे अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी सेवाओं के प्रति ग्राहकों की बढ़ती मांग प्रदर्शित होती है। वीएफएसआई सेक्टर में वित्तीय उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ कस्टमर सर्विस की भूमिकाओं और सेल्स एगिजक्यूटिव्स की जरूरत बढ़ रही है। ज्यादा उत्पादन और वितरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉन्स्यूमर उत्पादों का विस्तार हो रहा है। साथ ही, ग्राहकों की यात्रा में बढ़ती रुचि को देखते हुए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में भी स्टाफ की भर्ती की जा रही है।

'भारत टेक्स 2025' में दुनिया देखेगी भारतीय कपड़ों का फैशन और डिजाइन : मंत्री गिरिराज सिंह

बिजनेस रेमेडीज/ नई दिल्ली/आईएनएएस

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के विज्ञियो नेक्स्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत में बढ़ते कपड़ा उद्योग के बारे में

बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब कपड़ों के फैशन का पूर्वानुमान भी लगा रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञियो नेक्स्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप लॉन्च किया गया है। इससे पहले फैशन की भविष्यवाणी और कपड़ों के डिजाइन का काम

सिर्फ यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में ही होता था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार विज्ञियो नेक्स्ट लैब कपड़ा मंत्रालय के तहत निफ्ट के साथ मिलकर भारत की प्राचीन संस्कृति को अपनाते हुए कपड़े डिजाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले साल

फरवरी में होने वाले भारत टेक्स में दुनिया कपड़ों के नए डिजाइन देखेगी और कहेगी कि भारत ने अपने कपड़ों का फैशन खुद तय करना शुरू कर दिया है। अक्सर देखा जाता है कि यहां के लड़कें-लड़कियों को विदेशी कपड़ियों के कपड़े सही साइज में नहीं मिलते, क्योंकि पहले

भारत में डिजाइन की कोई वैल्यू नहीं थी। उल्लेखनीय है कि भारत टेक्स प्रदर्शनी में परिधान, घरेलू साज-सज्जा, फर्श कवरींग, फाइबर, धागे, कपड़े, कालीन, रेशम, कपड़ा-आधारित हस्तशिल्प, तकनीकी वस्त्र और बहुत कुछ शामिल होगा। इसके अलावा, हस्तशिल्प और

परिधान मशीनरी पर प्रदर्शनी, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट के सहयोगी स्थल पर आदिवासी परिधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार भारत टेक्स 2025 एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका आयोजन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद

(ईपीसी) के एक संघ द्वारा किया जा रहा है और इसे कपड़ा मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। 14-17 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने वाला इंडिया टेक्स 2025 दो अत्याधुनिक स्थलों पर होगा। इस बार इसका आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली और इंडिया एक्सपो सेंटर

एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में एक साथ किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 14-17 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा और प्रदर्शनी 12-15 फरवरी 2025 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाएगी।

अमेजन इंडिया ने गणेश चतुर्थी स्टोर पर आकर्षक डील के साथ त्योहारों के शुरुआत की घोषणा की

बिजनेस रेमेडीज/बंगलुरु



अमेजन इंडिया ने अपने गणेश चतुर्थी स्टोर के लॉन्च के साथ त्योहारों के शुरुआत की घोषणा की है जो उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला और डीलस की पेशकश करता है और पूरे भारत में ग्राहकों के लिए त्योहार की तैयारियों को आसान और आनंददायक बनाता है। गणेश चतुर्थी स्टोर, पारंपरिक वस्तुओं से लेकर आधुनिक गैजेट्स तक सभी त्योहारी जरूरतों को पूरा करने के लिए 7 सितंबर तक लाइव रहेगा।

गणेश चतुर्थी स्टोर में जटिल रूप से तैयार की गई गणेश मूर्तियाँ और पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं से लेकर, पारंपरिक मिठाई, उत्सव के कपड़े, होम डेकोर और इलेक्ट्रॉनिक्स में नए उत्पादों की

श्रृंखला शामिल की गई है। ग्राहक सभी कैटेगरी में आकर्षक ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनकी त्योहारी खरीदारी के लिए शानदार मूल्य सुनिश्चित होता है। अपने प्रियजनों को खुशी प्रदान करने की चाहत रखने वालों के लिए स्टोर कस्टोमाइजेबल ई-गिफ्ट कार्ड की पेशकश करता है, जो व्यक्तिगत फेस्टिव उपहार देने के लिए एकदम सही विकल्प है। अमेजन ग्राइम मेंबर्सए एक्सक्लूसिव डीलस और अल्ट्राफास्ट डिलीवरी ऑप्शन सहित अतिरिक्त लाभ का आनंद उठा सकते हैं, जिससे उनकी खरीदारी का अनुभव और भी सुविधाजनक और फायदेमंद हो जाता है।

पी एन गाडगिल ज्वैलर्स लिमिटेड का आईपीओ 10 सितम्बर को खुलेगा

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई

पी एन गाडगिल ज्वैलर्स लिमिटेड (कंपनी) का आईपीओ 10 सितंबर, 2024 को खुलेगा। बोली/प्रस्ताव बंद होने की तारीख गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 होगी। एंकर निवेशक बोली लगाने की तारीख बोली/प्रस्ताव खुलने की तारीख से एक कार्य दिवस पहले है, यानी 9 सितंबर, 2024। ऑफर का प्राइस बैंड 7456 प्रति इक्विटी शेयर से 7480 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बोली न्यूनतम 31 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 31 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है। कंपनी के आईपीओ में 10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू शामिल है, जो कुल मिलाकर 7,850

मिलियन तक है और 10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव है, जो कुल मिलाकर 2,500 मिलियन तक है। कुल ऑफर आकार में 10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 11,000 मिलियन तक है। बिक्री के प्रस्ताव में एसबीजी बिजनेस ट्रस्ट (प्रमोटर सेलिंग शेयरधारक) द्वारा 7.10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 2,500 मिलियन तक है। आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग के निम्नलिखित के लिए किया जाना प्रस्तावित है- (i) महाराष्ट्र में 12 नए स्टोर स्थापित करने पर होने वाले खर्च का फाइनेंस; (ii) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का पूर्ण या आंशिक



पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान; और (iii) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। यह पेशकश प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी), संशोधित (एससीआरआर) के अनुसार की जा रही है, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ पढ़ा जाता है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें ऑफर का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा योग्य संस्थागत अधिकारियों (क्यूआईबी भाग) को

आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि कंपनी, बीआरएलएम की सलाह से विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60 प्रतिशत तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशकों को आवंटन किए जाने वाले मूल्य (एंकर निवेशक आवंटन मूल्य) पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (नेट क्यूआईबी हिस्सा) में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5 प्रतिशत केवल म्यूचुअल

फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। वैध बोलियाँ ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त होने के अधीन, और नेट क्यूआईबी भाग का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते वैध बोलियाँ ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हो रही हों। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, इसके अलावा, ऑफर का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से एक तिहाई गैर-संस्थागत हिस्सा 200,000 से अधिक और 1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के

लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा 1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत हिस्से की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी एक में कम सदस्यता वाले बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत हिस्से की अन्य उप-श्रेणी, प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त वैध बोलियों के अधीन होगा। इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, ऑफर का कम से कम 35% हिस्सा रिटेल इंडिविजुअल पोर्शनों में आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर उनसे वैध बोलियाँ प्राप्त हों।

सिंगापुर एक भागीदार देश नहीं बल्कि हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

बिजनेस रेमेडीज/
सिंगापुर/आईएनएस



दो दिवसीय सिंगापुर दौरे पर आये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लूंग से मुलाकात की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की है। पीएम मोदी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे मित्र और सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लूंग से मिलकर मुझे हमेशा खुशी होती है। वह हमेशा से भारत-सिंगापुर के घनिष्ठ संबंधों के मजबूत समर्थक रहे हैं। विभिन्न मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि भी बहुत समृद्ध है। हमने इस बात पर अच्छी चर्चा

की है कि कैसे हमारे देश हरित ऊर्जा, फिनटेक आदि जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं।' इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वॉंग के साथ एक बैठक की।

उन्होंने कहा कि सिंगापुर सिर्फ एक भागीदार देश नहीं है, बल्कि हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेक 'सिंगापुर' बनाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हम साथ मिलकर उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे बीच गठित मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन एक पथ-प्रदर्शक तंत्र है, कौशल, डिजिटलीकरण, गतिशीलता, सेमीकंडक्टर, उन्नत विनिर्माण, एआई, स्वास्थ्य सेवा, साइबर सुरक्षा जैसे सहयोग के क्षेत्र पहल के प्रतीक बन गए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संबंधों में एक नया अध्याय: व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई।

पीएम मोदी और पीएम लॉरेंस वॉंग ने आज सिंगापुर में एक सार्थक बैठक की। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमत हुए जिसमें उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता के क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की गई। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेंगे।

चीन का प्रतिनिधिमंडल 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए फ्रांस रवाना

बिजनेस रेमेडीज/
बीजिंग/आईएनएस

चीन से 212 व्यक्तियों का एक दल 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फ्रांस के ल्योन जा रहा है, जो 10 से 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का पहला समूह दक्षिण चीन के क्रांगतोंग प्रांत के क्रांगचो से रवाना हुआ। इस वर्ष की विश्व कौशल प्रतियोगिता में दुनियाभर से 1,400 से अधिक प्रतियोगी भाग लेंगे, जो विभिन्न कौशल और व्यापारों में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल में 68 प्रतियोगी शामिल हैं, जिन्हें विशेषज्ञों, अनुवादकों और कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है।



18 से 25 वर्ष की आयु के प्रतियोगी सभी 59 कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें छह प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं- परिवहन और रसद, संरचना और निर्माण प्रौद्योगिकी, और सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, अन्य। चीनी मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में 58 पुरुष और दस महिलाएं शामिल हैं, जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है। प्रतिभागी विश्व मंच पर अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जो कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा में अंतराष्ट्रीय सहयोग के प्रति चीन की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रूस अपने परमाणु सिद्धांत में कर रहा है बदलाव : दिमित्री पेस्कोव

बिजनेस रेमेडीज/
मॉस्को/आईएनएस




पश्चिमी देशों की कार्रवाइयों के अनुसार होगा।' उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों में पश्चिमी देशों द्वारा रूस के साथ बातचीत करने से इनकार करना, रूसी हितों और सुरक्षा पर हमला तथा यूक्रेन को भड़काने में उनकी भूमिका शामिल है। पेस्कोव ने कहा कि इसके परिणाम तो होंगे ही। मॉस्को में इसे ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव तैयार किया

जा रहा है। रूस ने हाल ही में कहा है कि वह परमाणु हथियारों के उपयोग की परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले सिद्धांत में परिवर्तन करने जा रहा है, लेकिन उसने अभी तक परिवर्तनों की डिटेल्स साझा नहीं की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से साल 2020 में जारी एक आदेश में निर्धारित मौजूदा परमाणु सिद्धांत के अनुसार, अगर कोई दुश्मन रूस पर परमाणु हमला करता है या ऐसा हमला करता है जिससे देश के अस्तित्व को खतरा हो, तो रूस परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है।

चीन व इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों व सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की

बिजनेस रेमेडीज/
बीजिंग/आईएनएस



चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने देश की राजधानी पेइचिंग में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और सहयोग को गहरा करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

बैठक के दौरान, राष्ट्रपति शी ने अफ्रीका में स्वतंत्रता, मुक्ति और स्वतंत्र विकास के प्रतीक के रूप में इथियोपिया की प्रशंसा की, चीन-अफ्रीका सहयोग के व्यापक संदर्भ में चीन-

इथियोपिया संबंधों की अनुकरणीय प्रकृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने दोनों देशों के बीच ठोस राजनीतिक आपसी विश्वास पर जोर दिया, यह देखते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। शी ने इथियोपिया के साथ एकजुटता और सहयोग को गहरा करने की चीन की इच्छा व्यक्त की, जिसका उद्देश्य उनकी सभी मौसमों की रणनीतिक साझेदारी के स्थिर विकास को बढ़ावा देना और चीन-अफ्रीका मित्रता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देना है। राष्ट्रपति शी ने इथियोपिया के

इथियोपिया के साथ एकजुटता और सहयोग को गहरा करने की चीन की इच्छा व्यक्त की, जिसका उद्देश्य उनकी सभी मौसमों की रणनीतिक साझेदारी के स्थिर विकास को बढ़ावा देना और चीन-अफ्रीका मित्रता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देना है। राष्ट्रपति शी ने इथियोपिया के

अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय को संयुक्त रूप से बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय मामलों और संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचे के भीतर इथियोपिया के साथ संचार और सहयोग को मजबूत करने के लिए चीन की तत्परता व्यक्त की। प्रधानमंत्री अबी ने इथियोपिया के प्रति चीन की नीति की सराहना की और कहा कि यह सच्ची समानता और आपसी सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने इथियोपिया के आर्थिक और सामाजिक विकास में चीनी निवेश और सहयोग के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला।

बीमा। बैंकिंग। ज्वैलरी

स्टार हेल्थ इश्योरेंस ब्रेल लिपि में बीमा पॉलिसी लॉन्च करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई

भारत की सबसे बड़ी खुदरा स्वास्थ्य बीमा कंपनी, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टार हेल्थ इश्योरेंस) ने आज उद्योग में पहली बार ब्रेल लिपि में एक बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की। यह पॉलिसी समावेश और सुलभता के प्रति स्टार हेल्थ इश्योरेंस की प्रतिबद्धता बढ़ाते हुए, यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि दृष्टिबाधित और नेत्रहीन लोगों तक जानकारी की पहुंच हो और अपने स्वास्थ्य तथा वित्त संबंधी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकें। स्टार हेल्थ ने भारत में मौजूद 34 मिलियन दृष्टिबाधित/दृष्टिहीन लोगों को आय सृजन के अवसरों के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विविधता और वित्तीय समावेश अभियान भी शुरू

किया है। यह समाज के इस वंचित, हाशिए पर पड़े वर्ग को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर उन्हें कंपनी के साथ स्वास्थ्य बीमा एजेंट बनने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रक्रिया की खूबसूरती यह है कि यह उन्हें अपनी गति से, अपने परिचित परिवेश में काम करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद संभालने में मदद करता है।

स्टार हेल्थ इश्योरेंस के एमडी और सीईओ, आनंद रॉय ने कहा कि हमें ब्रेल लिपि में 'स्पेशल केयर गोल्ड' पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह समाज के सभी वर्गों में स्वास्थ्य बीमा तक समान पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पॉलिसी पारंपरिक बीमा से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि विकलांग व्यक्तियों को उनकी



जरूरत के अनुसार व्यापक सहायता और कवरेज मिले। हम अपेक्षाकृत अधिक समावेशी बीमा क्षेत्र बनाना चाहते हैं, विशेष रूप से भारत में 34 मिलियन दृष्टिबाधित लोगों के लिए। हम आईआरडीएआई के 'सभी के लिए बीमा' दृष्टिकोण के अनुरूप न केवल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य बीमा का लोकार्थिकरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं, बल्कि समाज के इस वंचित और हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए वहनीय आय सृजन के अवसर

पैदा कर वित्तीय समावेश में मदद करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोकोद्धार के लिए समर्पित, श्रीकांत बोल्ला से बेहतर और कौन हो सकता है। बोलाटो इंडस्ट्रीज के सीईओ, श्रीकांत बोल्ला ने कहा, कि मैंने विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों का अनुभव किया है और ऐसे व्यक्ति के रूप में मैं उद्योग में पहली बार पेश इस समावेशी पहल के लिए स्टार हेल्थ इश्योरेंस की सराहना करता हूँ।

स्पेशल केयर गोल्ड सिर्फ ब्रेल लिपि में पेश बीमा पॉलिसी ही नहीं है; यह सशक्तिकरण और समान अवसर का संदेश है। यह व्यक्ति करता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी किसी अन्य व्यक्ति की तरह स्वास्थ्य सुरक्षा का समान अधिकार है, और यह हमारे समाज में सही मायने में समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरा परिवार और मैं स्टार हेल्थ इश्योरेंस के ग्राहक हैं - और मुझे अब स्टार हेल्थ के साथ एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य बीमा एजेंट बनने और उन लोगों तक पहुंचने के लिए इसे अपने बढ़ाने की खुशी है जिन्हें अपना जीवन बेहतर बनाने में इस महत्वपूर्ण सहायता की जरूरत है।

मशहूर उद्योगपति श्रीकांत बोल्ला, दृष्टिबाधित उद्यमी और बोलाटो इंडस्ट्रीज के संस्थापक-अध्यक्ष इस लॉन्च कार्यक्रम में स्टार हेल्थ इश्योरेंस के एमडी

और सीईओ, आनंद रॉय के साथ शामिल हुए। 'स्पेशल केयर गोल्ड' पॉलिसी विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। 2017 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि भारत में 34 मिलियन लोग, या आबादी का 2.5 प्रतिशत हिस्सा दृष्टिबाधित है। इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्टोमेट्रोलॉजी द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दृष्टिबाधा के कारण उत्पादकता में 646 अरब रुपये यानी प्रति व्यक्ति 9,192 रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। यह पॉलिसी ग्राहकों के इस महत्वपूर्ण लेकिन स्वास्थ्य बीमा सेवा से वंचित वर्ग के लिए समावेशी और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है।

डैम कैपिटल एडवाइजर्स ने सेबी के पास डीआरएचपी दारिखल किया

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई

डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। डैम कैपिटल वित्त वर्ष 2022 से 2024 तक राजस्व सीएजीआर के हिसाब से भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला निवेश बैंक है। अपने समकक्षों की तुलना में डैम कैपिटल का वित्त वर्ष 2024 में प्रॉफिट मार्जिन सबसे अधिक है।

वित्त वर्ष 2024 में आईपीओ और क्यूआईपी की संख्या के आधार पर 12.1 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ यह भारत के अग्रणी निवेश बैंकों में से एक था। डीएएम कैपिटल (i) निवेश बैंकिंग के

क्षेत्रों में इक्रिटी कैपिटल मार्केट्स (ईसीएम), विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए), निजी इक्रिटी (पीई), और संरचित वित्त सलाहकार; और (ii) ब्रोकिंग और शोध शामिल संस्थागत इक्रिटी के क्षेत्रों में वित्तीय समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। जानकारी के अनुसार कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में इन्वेंस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर्स - मल्टीपल्स अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट, आरबीएल बैंक, ईजी एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज और नरोत्तम सेखसरिया द्वारा 32.06 मिलियन शेयरों तक की ऑफर फंड सेल शामिल है। प्रमोटर धर्मेश अनिल मेहता भी अपनी हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा बेच रहे हैं। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

पीएनबी ने शिक्षकों से बैंकिंग व तनाव ग्रस्त जीवन पर विचार विमर्श-किया

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर



शिक्षकों को पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। सभी शिक्षकों ने बैंकिंग एवं तनाव ग्रस्त जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर डाक्टर जी एस कलवानिया, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर, प्रमिला

ICRA ने वेदांता की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करते हुए AA किया

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

आईसीआरए ने वेदांता लिमिटेड की दीर्घावधि क्रेडिट रेटिंग को [ICRA]AA- से बढ़ाकर [ICRA]AA कर दिया है, जो कंपनी की मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल को दर्शाता है। अल्पकालिक रेटिंग की भी [ICRA]1+ पर फिर से पुष्टि की गई है।

यह अपग्रेड वेदांता समूह में दीर्घकालिक रणनीतिक विकास और वित्तीय मजबूती पर केंद्रित महत्वपूर्ण विकास के बीच हुआ है। वेदांता लिमिटेड ने 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का वॉर चेस्ट बनाया है, जिसमें मुख्य रूप से मौजूदा नकदी भंडार, हिस्सेदारी बिक्री और अपनी सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक

लिमिटेड (एचजेडएल) से हासिल लाभांश शामिल है। पिछली कुछ तिमाहियों में, वेदांता ने अपनी बैलेंस शीट को डीलिवरेज किया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में शुद्ध ऋण से ईबीआईटीडीए अनुपात में 1.9x से वर्तमान में 1.5x तक सुधार हुआ है।

वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अपने बकाया बॉण्ड के एक बड़े हिस्से को पुनर्वित्त करने के लिए भी सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है, जिसका लक्ष्य समेकित इकाई की ब्याज लागत को और कम करना है। सभी डीलिवरेजिंग प्रयासों से समूह की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी में भी समग्र रूप से सुधार होने की उम्मीद है।



उल्लेखनीय है कि जुलाई 2024 में एस एंड पी ग्लोबल ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को CCC+ से B-/stable में अपग्रेड किया था।

वेदांता समूह के पास विभिन्न श्रेणियों में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खदानें हैं। इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में इसकी दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत जस्ता-सीसा खदान है। वेदांता की सहायक कंपनी - एचजेडएल - दुनिया में चांदी की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है, जबकि इसकी तेल और गैस इकाई दुनिया की

सबसे लंबी लगातार गर्म पाइपलाइन का संचालन करती है। वेदांता ने हाल ही में लगभग 1 अरब डॉलर के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) के शेयरों की बिक्री से अतिरिक्त 400 मिलियन डॉलर पूंजी एकत्रित की है। इसके अलावा, जून 2024 में वेदांता में हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा जुटाए गए लगभग 500 मिलियन डॉलर भी समूह के समग्र ऋण बोझ को कम करने में सहायता करेंगे। इस कदम से समूह के फायदे में सुधार और इसके ब्याज व्यय में कमी आने की उम्मीद है, जो दीर्घकालिक स्थिरता और विकास पर केंद्रित

एक मजबूत वित्तीय रणनीति का संकेत देता है।

इन वित्तीय सुधारों के अलावा, वेदांता का ऑपरेशनल परफॉर्मंस भी एक प्रमुख चालक रहा है। कंपनी ने विशेष रूप से अपने एल्यूमीनियम और जस्ता कारोबारों में ठोस परिणाम दर्ज किए हैं, जहां बेहतर प्रारिणों और लागत दक्षताओं ने मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मंस को जन्म दिया है। उन्होंने मिलकर वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में समेकित ओपीबीआईटीडीए में 80 फीसदी से अधिक का योगदान दिया। कंपनी ने लांजीगढ़ में अब तक का सबसे अधिक एल्यूमिना उत्पादन दर्ज किया और जिंक इंडिया यूनिट में धातु उत्पाद का खनन किया।

दक्षिण कोरिया के नजारे किसी जन्त के अहसास से कम नहीं

बिज़नेस रेमेडीज/द. कोरिया

दुनिया के हर देश अपने आप में अनूठी सुंदरता और विशेषता समेटे हुए हैं पर दक्षिण कोरिया उनमें अद्वितीय है। ऊँचे-ऊँचे पहाड़, दिल लुभाते झरने, घने जंगल, उन सबके बीच काली-सफेद चट्टानें, दूर-दूर तक पसरा समुद्र तट, फूल-पतियाँ-टहनियाँ। ये देखकर प्रकृति की गोद में खो जाने का अहसास किसी जन्त के अहसास कम नहीं। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहाँ ऐसे नजारों और अहसासों को पाना दुर्लभ नहीं, पर जब बात दक्षिण कोरिया की हो तो आप इन अहसासों और आसानी से पा सकते हैं।

इस देश की सांस्कृतिक विरासत भी समृद्ध रही है। यानी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ-साथ यहाँ आप पारंपरिक और आधुनिक कला का खूबसूरत मेल भी देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया को दुनिया के कुछ बेहतरीन हनीमून पड़वों में से एक माना जाता है। यहाँ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा रहता है।

सियोल

यह दक्षिण कोरिया की राजधानी है और इस देश का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र भी। यहाँ आप मन को सुकून देने शांति के साथ शहर की नाइट लाइफ का भी भरपूर लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको आधुनिक और प्राचीन कोरिया की संस्कृति के मेल का खूबसूरत नमूना दिखाई देगा। यही एक खास बात है जो सियोल को विशेष बनाता है। यहाँ के कुछ स्थान यूनेस्को विश्व



विरासत सूची में शामिल हैं। चेंजिदोको पैलेस, हवासांस फोर्टिस, जोंग्यो शीरिन और जोसियन डिनेस्टी का राजसी मस्जिद ऐसे कुछ नाम हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में रखा है। यहाँ की मुख्य रौनक स्ट्रीट फूड भी है, जो सड़क किनारे लंबी कतारों में चमकीली रोशनियों के बीच शहर की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। इस कारण इस शहर को 'होम ऑफ स्ट्रीट फूड' भी कहा जाता है। सियोल शहर दुनिया भर में एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में मशहूर है। अपनी अलग शैक्षणिक प्रणाली और बौद्ध मठों के लिए भी इस शहर को पसंदीदा पड़ाव माना जाता है। इसे अलावा, यहाँ यूथ कल्चर भी शानदार है। मिली-जुली संस्कृति और आधुनिक तकनीक से बनी इमारतें इसकी शान हैं। कोरिया फाइनेंस बिल्डिंग, एन सियोल ऑवर, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सेवन स्काइस्क्रैपर रजिडेंस टॉवर पैलेस शहर के मुख्य आकर्षण हैं।

ह्यूंड तट, बुसान

बुसान एक तटीय इलाका है, जो कई तटों से घिरा है। इसी में से एक है ह्यूंड तट। केवल गर्मियों में ही नहीं, बल्कि यहाँ आप सर्दी के मौसम में आएँ तो भी इस जगह की खूबसूरती का पूरा आनंद उठा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में टहलने के लिए यह बहुत मुफीद जगह है। यहाँ वर्ष भर कुछ न कुछ आयोजन होते रहते हैं। डोंगबीकसियोम द्वीप इसके दक्षिण किनारे पर बसा है। इसका नजारा आप कार से भी कर सकते हैं। फिशिंग यानी मछली पकड़ने के लिए भी यह जगह काफी प्रसिद्ध है। बुसान में स्थित इस द्वीप पर जो सबसे खास गतिविधि है वह है सूर्योदय का पहला नजारा। साल की पहली तारीख को दुनिया के इलाकों से लोग इस नजारे को देखने यहाँ आते हैं।

जियोंगजू

उत्तरी उलसन और बुसान के

दक्षिणी-पूर्वी इलाके में बसा है यह छोटा-सा शहर। इस शहर को आमतौर पर एक ऐसा म्यूजियम कहा जाता है, जिसमें दीवारों न हों। दरअसल, यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्थल हैं, जहाँ देखने-समझने को काफी कुछ है। बुलास्का मंदिर पूरे कोरिया में प्रसिद्ध है, यहीं स्थित है। इसमें एक बार कागज के रुपये को मड़वा दिया गया था। कहा जाता है कि यह पुराना पाँच सौ का नोट था। यह मंदिर कोरियाई बुद्धिस्ट स्थापत्य का एक शास्त्रीय नमूना है। यदि आप यहाँ आने को इच्छुक हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह तड़के आएँ। आप पाएँगे यह एक मास्टर पीस है, जो दुनिया में दूसरी और कम जगह देखने को मिल सकती है। दरअसल, यह आठवीं सदी का कला नमूना है जिसे सिला राजवंश में बनाया गया था। बस्त के मौसम में इसका नजारा और सुंदर जान पड़ता है। चैरी के पेड़ यहाँ की मुख्य गलियों में बहुतायत मिल जाते हैं।

क्लब महिंद्रा जैसलमेर : शानदार विरासत के आकर्षण और रोमांच का करें अनुभव यह रिसॉर्ट 11 अगस्त से 31 मार्च तक मौसमी रूप से संचालित होता है।

बिज़नेस रेमेडीज

स्वर्ण नगरी जैसलमेर की हृदय स्थली में स्थित, क्लब महिंद्रा जैसलमेर रिसॉर्ट इतिहास, संस्कृति और रोमांच का एक ऐसा अनूठा दृश्य प्रस्तुत करता है कि जिसे देखने वाला अपनक निहारता ही रह जाता है। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर किले के पास और कुभलगढ़ और जोधपुर से ड्राइविंग दूरी के भीतर सुविधाजनक रूप से स्थित, रिसॉर्ट आपके प्रवास में ऐतिहासिक रोमांच का एक दिलकश स्पर्श जोड़ता है। यहाँ जैसलमेर हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से हवाई, रेल और सड़क मार्ग किसी भी तरीके से पहुंचा जा सकता है। यह रिसॉर्ट 11 अगस्त से 31 मार्च तक मौसमी रूप से संचालित होता है। दिसंबर से जनवरी तक के पीक सीजन के दौरान, इसमें ऑक्टोबर्स 90 प्रतिशत तक हो जाती है। इस तरह कहा जा सकता है कि विश्राम और नवीन खोज दोनों के लिहाज से यह एक सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन है।

विशाल थार रेगिस्तान की पृष्ठभूमि में स्थित इस रिसॉर्ट में 69 बड़े और विशाल कमरे हैं। यहाँ आने पर मेहमानों का पारंपरिक कच्ची घोड़ी, ढोल और आरती-टीका समारोहों के साथ स्वागत किया जाता है, जो एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। रिसॉर्ट में जीमिंग रेस्तरां में भोजन करना एक शानदार अनुभव है। यहाँ आपको मिलता है ऑथेंटिक राजस्थानी फूड जिसमें शामिल हैं- मूंग दाल कचौरी, लाल



मांस, दाल बाटी चूरमा, बाजरे का रोटला और केर सांगरी जैसे पारंपरिक पसंदीदा व्यंजन। इन लजीज व्यंजनों के साथ आप ग्लूटेन-मुक्त, लैक्टोज-मुक्त और शाकाहारी विकल्पों का आनंद ले सकते हैं। भोजन के साथ यहाँ कभी-कभी लाइव संगीत का आयोजन भी होता है, जो मेहमानों के अनुभव को बढ़ाता है। रिसॉर्ट में एक स्पा भी है जहाँ आपको अनेक प्रकार की पश्चिमी चिकित्सा की सुविधा मिलती है।

इसके अलावा, इस रिसॉर्ट में होटल इकाइयों और विशाल लॉन से घिरा एक स्विमिंग पूल भी है, जो आयोजनों और समारोहों के लिए आदर्श है। रिसॉर्ट में कई तरह की गतिविधियाँ की जा सकती हैं, जिनमें एक खूबसूरत तालाब के पास 2 किमी की ई-साइकिल यात्रा, हैप्पी हब में इनडोर गेम और टेनिस, बॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे आउटडोर खेल

शामिल हैं। शाम के अनूठे मनोरंजन में राजस्थानी लोक नृत्य, कव्वाली शो और चैप शो शामिल हैं जो एक राजस्थान की विविध संस्कृति को आपके सामने पेश करते हैं।

फरवरी में, यहाँ होने वाला मरु महोत्सव मेहमानों को स्थानीय संस्कृति और विरासत का अनुभव करने का अवसर देता है। रोमांटिक छुट्टी के लिए, रिसॉर्ट 35 किमी दूर एक विशेष सैंड ड्यून डिनर अनुभव प्रदान करता है, जिसमें पारंपरिक लोक नृत्य प्रदर्शन, रेगिस्तान सफारी, ऊंट और जीप की सवारी और यहाँ तक कि पैगलाइडिंग भी शामिल है। आस-पास के आकर्षक स्थानों में जैसलमेर किला, पटवों की हवेली, बड़ा बाग, जैसलमेर युद्ध संग्रहालय, तनोट माता मंदिर, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान और कुलधरा का परित्यक्त गाँव शामिल हैं। भारत-पाक सीमा के पास तनोट माता मंदिर में 1971 के युद्ध के बिना

फटे बमों को दैवीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। लोंगेवाला चेकपोस्ट, भारतीय सेना द्वारा बनाए रखा गया एक युद्ध स्मारक है। यह एक महत्वपूर्ण स्थल पर स्थित है और भारत के युद्धकालीन इतिहास की एक झलक पेश करता है।

क्लब महिंद्रा जैसलमेर को आईजीबीसी ग्रीन रिसॉर्ट सर्टिफिकेशन के साथ अपनी हरित पहल के लिए मान्यता दी गई है और यह आरसीआई गोल्ड क्राउन से संबद्ध है, जो आतिथ्य और सेवा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करता है। ये प्रयास सस्टेनेबल पर्यटन के प्रति रिसॉर्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। चाहे आप स्थानीय स्थलों की खोज कर रहे हों, अनोखे भोजन का आनंद ले रहे हों, या शांत वातावरण में आराम कर रहे हों, क्लब महिंद्रा जैसलमेर में आपका हर पल यादगार और दिलचस्प होने का पक्का वादा है।

हेल्थ | लाइफस्टाइल | एजुकेशन

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल के विशेषज्ञों ने युवा अवस्था में हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रमुख उपाय साझा किये

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

संपूर्ण स्वास्थ्य और खास तौर पर हृदय के लिए अच्छे पोषण बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करता है, रक्तचाप के स्तर में सुधार करता है और बेहतर हृदय संबंधी परिणामों में योगदान देता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण के महत्व पर प्रकाश डालता है।

डॉ. अमित कुमार सिंघल, एडिशनल डायरेक्टर, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर कहते हैं, 'पोषण हृदय स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम है। हम जो खाना खाते हैं उसका हमारे हृदय के कार्य, रक्त परिसंचरण और समग्र हृदय स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा



डॉ. अमित कुमार सिंघल, एडिशनल डायरेक्टर, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर

से भरपूर संतुलित आहार हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर की पोषण विभागाध्यक्ष डॉ. रिचा मित्तल कहती हैं, 'यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या खाते हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि हम कैसे खाते हैं। भोजन की मात्रा पर नियंत्रण, सोडियम का सेवन कम करना और हाइड्रेटेड रहना स्वस्थ हृदय को बनाए



फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर की पोषण विभागाध्यक्ष डॉ. रिचा मित्तल

रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वस्थ हृदय बनाए रखने के लिए, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल, जयपुर के विशेषज्ञ द्वारा सुझाव: अपने आहार में भरपूर मात्रा में फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल करें। सेल्मन और अलसी जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ हृदय स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद



होते हैं। उच्च सोडियम स्तर उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जो हृदय रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। ताजे, अनप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का चयन करें और नमक के बजाय अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए जड़ी-बूटियों और मसालों का उपयोग करें। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार के साथ मिलकर, स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से

कम 30 मिनट व्यायाम का लक्ष्य रखें। संतुष्ट और ट्रांस वसा आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिससे धमनियों में रुकावट और हृदय रोग हो सकता है। स्वस्थ वसा चुनें, जैसे कि जैतून का तेल, नट्स और एवोकाडो में पाए जाने वाले वसा, और प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें। इन आहार परिवर्तनों को अपनाने और नियमित शारीरिक गतिविधि को शामिल करके, व्यक्ति स्वस्थ हृदय बनाए रखने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं।

बाघ के हमले से घायल युवक की मणिपाल हॉस्पिटल ने जान बचाई

बिज़नेस रेमेडीज/कोलकाता

गौर मॉडल, 54 वर्षीय सुंदरवन के निवासी, 17 अगस्त 2024 को सुबह के समय बाघ द्वारा क्रूर हमले का शिकार हुए। उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसमें उनके गर्दन के दाहिने हिस्से को फाड़ दिया गया और उनके चेहरे पर घाव और कटने के निशान बन गए। उन्होंने बाघ के हमले को रोकने के लिए उसके चेहरे को पकड़ लिया।

हमले के बाद, मॉडल को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोलकाता में आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल, धकुरिया में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनके इलाज के लिए तैयार थी।

आपातकालीन टीम ने तुरंत उनकी स्थिति को स्थिर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सर्जरी की। अस्पताल पहुंचने पर, मॉडल को विस्तृत निदान मूल्यांकन मिला,



जिसमें कई सीटी स्कैन शामिल थे। सीटी स्कैन में महत्वपूर्ण चोटें दिखाई दीं, जैसे कि खोपड़ी के आधार पर कम्यूनिटेड फ्रेक्चर, जो तब होता है जब एक हड्डी तीन या अधिक भागों में टूट जाती है। मॉडल को एक जटिल ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, जिसमें पोस्टीरियर सर्वाइकल डिक्प्रेशन शामिल था ताकि स्थानीय शिराओं और रीढ़ की हड्डी के दबाव को कम किया जा सके। डॉ. निरुप दत्ता, मानिपाल हॉस्पिटल, धकुरिया में न्यूरोसर्जन, ने सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया। ऑपरेशन, जो तीन घंटे से अधिक समय तक चला, केवल शुरुआत थी एक लंबे और कठिन प्रक्रिया की जो उनके ठीक होने के लिए आवश्यक थी। गौर मॉडल ने अपने भयानक अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मैं

मछली पकड़ने की नाव पर था जब बाघ अचानक कहीं से हमला कर दिया। उसने मुझे संतुलन से गिरा दिया, जिससे मैं पानी में गिर गया। लेकिन मैंने एक बार भी लड़ना नहीं छोड़ा, जिसने शायद बाघ को डरा दिया। जब मेरे दो साथी मेरी मदद के लिए आए और लड़ाई में शामिल हुए, तो बाघ अंततः वहाँ से चला गया। मुझे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में मानिपाल हॉस्पिटल, धकुरिया में स्थानांतरित कर दिया गया। मैं अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए धन्य हूँ। हालाँकि यह कठिन था, लेकिन ठीक होने की प्रक्रिया ने मुझे मानिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ के प्रति आभारी बना दिया है। उनकी सहायता और देखभाल ने मुझे मृत्यु के कगार से वापस लाया।

महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिक्षकों का सम्मान किया

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षकों ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, वहीं विद्यार्थियों ने डॉक्टरों का वंदन कर आभार व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में नैतिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित किया गया, जिससे विद्यार्थियों को सही दिशा में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की प्रेरणा मिली। विद्यार्थियों ने अपने चिकित्सा शिक्षकों का सम्मान



किया और चिकित्सा क्षेत्र में उनके मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एमेरिटस चेरमैन डॉ एम एल स्वर्णकार, कुलपति डॉ अचल गुलाटी, प्राचार्य डॉ एन डी सोनी,

डॉ ए के शर्मा, डॉ वी के सारस्वत, डॉ अजय शर्मा, डॉ हेमंत मल्होत्रा, डॉ अपर्णा, डॉ राजप्रीत सोनी, डॉ बुशरा फिजा और अन्य प्रमुख डॉक्टरों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

शिक्षक दिवस पर मंत्री आतिथी ने शिक्षकों को सम्मानित किया

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली/आईएनएस

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिथी ने 'शिक्षक दिवस' के मौके पर गुरुवार को त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया।

इसमें सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, एमसीडी स्कूलों, एनडीएमसी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। स्पोर्ट्स टीचर, गेस्ट टीचर, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, म्यूजिक व आर्ट टीचर, लाइब्रेरियन, मेंटॉर टीचर, स्पोर्ट्स टीचर और वोकेशनल टीचर भी शामिल हैं।

आतिथी ने शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के सराहनीय

प्रयास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समाज के अंतिम पंक्ति तक मौजूद हर उस बच्चे में शिक्षा की अलख जगाना चाहती है, जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए हैं। हमने सभी बच्चों तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार के खर्च पर विदेश भेजा।

आतिथी ने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्रांति आई है। इससे कई बच्चों को फायदा हो रहा है। पहले कई बच्चे उच्च शिक्षा का फायदा नहीं उठा पाते थे, लेकिन हमने इस बाधा का खत्म किया और यह सुनिश्चित किया कि

उच्च शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच हो।

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिथी ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मेरा शिक्षा से शुरू से जुड़ाव रहा, चूंकि मेरे माता-पिता दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। मैं गुणवत्ता युक्त शिक्षा के महत्व को समझती हूँ। मेरी कोशिश है कि सभी वर्गों तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा पहुंचे। कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे।' उन्होंने आगे कहा कि किसी भी देश के विकास को गति प्रदान करने की दिशा में शिक्षा की अपनी एक अलग भूमिका है, इसलिए हमारी सरकार ने शुरू से ही शिक्षा पर विशेष जोर देना जरूरी समझा।'

त्योहारों के लिए अपना घर अमेजन डॉट इन के साथ तैयार करें

अमेजन डॉट इन का होम शॉपिंग स्पी बोनान्ज़ा 8 सितम्बर तक चलेगा



बिज़नेस रेमेडीज/बेंगलुरु

अमेजन डॉट इन के अमेजन डॉट इन होम शॉपिंग स्पी के साथ त्योहारों के लिए अपने घर को बिल्कुल नए ढंग से तैयार करें। आप यहाँ होम, किचन और आउटडोर से जुड़े उत्पादों की विशाल रेंज पर आकर्षक डील प्राप्त कर सकते हैं।

4 से 8 सितंबर 2024 तक डैश, बोरोसिल, फिलिप्स, क्यूबो, स्काँच-ब्राइट, स्ट्रॉस और ऐसे कई अन्य टॉप ब्रांड के शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक न्यूनतम 1500 रुपये की खरीद पर 300 रुपये कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं और न्यूनतम 40 प्रतिशत की छूट भी पा सकते हैं।

SHRIRAM FINANCE LIMITED
(Formerly known as Shriram Transport Finance Company Limited)
Corporate Identity No. (CIN) L65191TN1979PLC007874
Regd. Office: Sri Towers, Plot No.14A, South Phase, Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, India.
Tel: +91 44 4852 4666 | Fax: +91 44 4852 5666.
Website: www.shriramfinance.in Email ID: iepfclaims@shriramfinance.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(5) and Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read along with the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) issued by Ministry of Corporate Affairs and subsequent amendment thereto.

As per the IEPF Rules, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders of Shriram Finance Limited (the Company) and erstwhile Shriram City Union Finance Limited (SCUF) for seven consecutive years shall be credited to demat Account of the IEPF Authority by way of corporate action. All the underlying shares in respect of which the dividend has remained unclaimed for seven consecutive years (i.e. from the Interim Dividend for the Financial Year 2017-18 onwards, will also be transferred to IEPF Authority and the due date for such transfer is **December 07, 2024** and **December 04, 2024** respectively. For details of those shares, the shareholders may refer the Company's website <http://www.shriramfinance.in> under the 'Investor' section. Individual notices are sent to the respective shareholders at their registered addresses informing them about the due dates for transfer of unclaimed dividend to IEPF Authority. Accordingly, the concerned shareholders of the Company and SCUF are requested to make an application to the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent (contact details are given in last para of this Notice) by **Wednesday, November 20, 2024** for claiming the unpaid Interim dividend for the Financial Year 2017-18 onwards so that their shares are not transferred to the IEPF Authority. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and corresponding shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said IEPF Rules. Shareholders may note that both the unclaimed dividend and shares once transferred to the IEPF Authority can be claimed from the IEPF Authority after following the procedures prescribed under the IEPF Rules (refer the IEPF website <http://www.iepf.gov.in>).

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by **Wednesday, November 20, 2024**, the Company shall credit those shares to the demat account of IEPF Authority as per procedure stipulated in the IEPF Rules. Kindly note that all future benefits like dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF Authority.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact Mr.Dnyandeve Choudhary at Telephone No.022 - 4095 9558 or Mr. Vinay Patil at Telephone No.022 - 4095 95 42 email: iepfclaims@shriramfinance.in or Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s.Integrated Registry Management Services Private Limited Ms. Anusha N / Ms. R.Meenakshi at Unit: Shriram Finance Limited, 2nd Floor, "Kences Towers" No.1 Ramakrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017. Telephone No.+91-44-28140801 to 28140803 Fax : +91-44-28124279; email: einward@integratedindia.in

Place : Mumbai Sd/-
Date: September 05, 2024 U Balasundarao
Company Secretary & Compliance Officer

MIRAE ASSET
Mutual Fund

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/48/2024

THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ("SAI") OF MIRAE ASSET MUTUAL FUND ("MAMF/FUND").

Cessation of Mr. Vishal Samant as Head - Information Technology and Chief Information Security Officer ("CISO"), Key Personnel of Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd (AMC)

Notice is hereby given that Mr. Vishal Samant ceases to be Head - Information Technology and Chief Information Security Officer ("CISO"), Key Personnel of AMC with effect from Wednesday, September 04, 2024.

Accordingly, the existing details relating to Mr. Vishal Samant appearing under the heading 'Information on Key Personnel' under Section II - 'Asset Management Company' in the SAI of the Fund hereby stands deleted.

Appointment of Mr. Sameer Mhatre as CISO and Key Personnel of AMC

Notice is further given that Mirae Asset Trustee Company Private Limited ("Trustees") to the Fund have approved the appointment of Mr. Sameer Mhatre as Chief Information Security Officer ("CISO") and Key Personnel of AMC with effect from Thursday, September 05, 2024.

Consequently, the details pertaining to Mr. Sameer Mhatre, shall be added under the heading 'Information on Key Personnel' under Section II - 'Asset Management Company' in the SAI of the Fund :-

Name	Designation/ Years of experience	Qualification/ Age	Experience & Background (during last 10 years)
Sameer Mhatre	Chief Information Security Officer/ 11 years	Bachelor of Engineering Electronics & Telecom/ 34 Years	Mr. Sameer Mhatre has over 11 years of experience in handling IT Security Projects, BCP/DR, SOC Monitoring & Incident response, various IT Audits and has been overall responsible for the Information Technology and cybersecurity posture of an organization. Prior to this assignment, Mr. Mhatre was associated with ICICI Prudential Asset Management Company Limited, Vodafone India Ltd and Dimension Data India Pvt Ltd.

Further, the SAI of MAMF stands amended suitably to reflect the changes as stated above.

This notice cum addendum forms an integral part of SAI, as amended from time to time. All other terms and conditions of SAI will remain unchanged.

For and on behalf of the Board of Directors of
MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD.
(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Place : Mumbai Sd/-
Date : September 05, 2024
AUTHORISED SIGNATORY
MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625). Statutory Details: Sponsor: Mirae Asset Global Investments Company Limited. Trustee: Mirae Asset Trustee Company Private Limited.
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), 📧 customercare@miraeasset.com, 🌐 www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

DESTINY LOGISTICS & INFRA LIMITED
CIN: L63090WB2011PLC165520
Regd. Office: 375, Dakshindara Road, Parganas North, Kolkata, West Bengal, India, 700048
Website: www.destinyinfra.in Email ID: cs@destinyinfra.in Phone No.: 033 - 4008 7463

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Friday, 27th September, 2024, at 3:00 p.m.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ("the Act"), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020 and General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular dated 5th January, 2023, (collectively referred to as "Circulars") to transact the business as set out in the Notice of AGM of the Company. Members will be able to attend and participate in the AGM by VC/OAVM only. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid Circulars the Company has sent Notice of AGM by electronic mode only, on Wednesday, 04th September, 2024, to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants up to August 28, 2024.

The Notice of the AGM can be downloaded from the Company's website at <https://destinyinfra.in/> and website of the stock exchange, i.e., NSE Limited at www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited ("NSDL"), i.e., www.evoting.nsdl.com.

REMOTE E-VOTING AND E-VOTING AT THE AGM

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, the Company has engaged services of NSDL for providing remote e-voting facility prior to AGM ("remote e-voting"). Additionally, the Company, through NSDL is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting").

Cut-off date for e-voting	Friday, 30th August, 2024
Commencement of Remote e-voting	9:00 a.m. (IST) on Tuesday, 24th, September, 2024
Conclusion of Remote e-voting	5:00 p.m. (IST) on Thursday, 26th September, 2024

Members who will be present at the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote by remote e-voting, will be eligible to exercise their right to vote during the AGM. Members who have cast their vote by Remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Accordingly, members may cast their votes through remote e-voting and e-voting at the AGM by following the instructions mentioned in the Notice. Once the vote on a Resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

The Company has appointed Mr. Abbas Vithorawal (Membership No.23671) Practising Company Secretary to act as a Scrutinizer for monitoring remote e-voting process and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner. The results of e-voting shall be declared within two working days after conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be communicated to the Stock Exchange and will be placed on the website of the Company at <https://destinyinfra.in/> and on the website of **Cameo Corporate Services Limited** ("Cameo") at <https://cameoindia.com>.

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM facility provided by using NSDL's Remote e-voting login credentials and by following the instructions mentioned in the Notice.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and is holding shares as of the cut-off date i.e., **Friday, 30th August, 2024** may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL helpdesk by sending a request at mail to: evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000. Additionally, members may also contact **Cameo Corporate Services Limited** by sending a mail to: or call at 044-40020742.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For Destiny Logistics & Infra Limited
By Order of the Board of Directors
Sd/- Rekha Bhagat
Managing Director
DIN - 03564763

Place: Kolkata
Date: 06th September, 2024

ICICI Home Finance
Registered office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051
Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kuria Road, Andheri East, Mumbai- 400059
Branch Address: 2nd floor, SCO-319, Sec-29, Gurgaon, Haryana-122001

The following borrowers have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from ICICI Home Finance Company Limited ("ICICI HFC") and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). A notice was issued to them under Section 13(2) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was not served and hence they are hereby notified by way of this public notice.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Loan Account Number & Address	Property Address of Secured Asset/ Asset to be Enforced	Date of Notice Sent/ Outstanding on Date of Notice	NPA Date
1.	Rakesh Yadav (Borrower), Pinkey Yadav (Co-Borrower), S O Brenden Singh, 660 22 09 Shivaj Nagar Gurgaon Gurgaon, Gurgaon Gurgaon Haryana-122001, LHRW10001321625	Flat No. B320, 3rd Floor, Tower B, Khadra No- 188 and 189, Tjara Homes, Village Ballyang Tehsil Shiwadi Rajasthan- 301019 Addressing area 550 Sq. Ft. Bounded By- North: Road, South: Other Land, East: Road, West: Other Land.	17-08-2024 3,11,493,341/-	03/08/2024
2.	Mohi Arif Khan (Borrower), Rihana (Co-Borrower), House No. 260 Gni Marki Tyagi Marki Ghaziabad Uttar Pradesh-201102, LHGU10001541342	Property No.4, Khadra No. 397, Balram Nagar Ext.-1, Village Dhaurauki Khurd, Parganas Loni, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102, Addressing area 100 Sq. Yards, (63.61 Sq. Mtrs.), Bounded By- North: Plot No. 5C, South: Plot No. 3C, East: Remaining area of Plot, West: Road 12H Wide.	17-08-2024 1,01,81,055.81/-	08/08/2024

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrower's and/or their guarantors (as applicable) are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of publication of this notice else further steps will be taken as per the provisions of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.
Date : September 06, 2024, Place: Bhiwadi, Ghaziabad
Authorized Officer, ICICI Home Finance Company Limited

POSSESSION NOTICE
EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.

CIN: U67100MH2007PLC174759
Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098

Whereas, the Authorized Officer of the Secured Creditor mentioned herein, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act), 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with (Rule 3) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice under Section 13(2) of the said Act, as mentioned below calling upon the borrower(s) to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

That the Assignor mentioned hereinabove has assigned the financial assets to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited, acting in its capacity as trustee of various trusts mentioned hereunder (hereinafter referred as "EARC"). Pursuant to the assignments in accordance with Section 5 of the SARFESI Act, 2002, EARC has stepped into the shoes of the Assignor and all the rights, title and interests of Assignor along with underlying security interests, guarantees, pledges have been vested with EARC in respect of the financial assistance availed by the Borrower(s)/Co-Borrower(s) and EARC is entitled to exercise all its rights as the secured creditor.

That the borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/Co-Borrower(s) and the public in general that the undersigned being the Authorised Officer of EARC has taken possession of the respective mortgaged property described herein below in exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 6 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the respective date mentioned against each Loan Account/Mortgaged Property.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of the time available to redeem the secured assets. The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited for the amount mentioned below along with interest thereon.

Sl No.	Name of Assignor	Name of Trust	Loan Account Number	Borrower Name & Co-Borrower(s) Name	Amount & date of demand Notice	Date of Possession	Possession Status
1.	HDB Financial Services Limited	EARC Trust - SC 482	179805	1. Mr. VINOD SHARMA (Borrower) 2. Mrs. RUBY DEVI (Co-Borrower)	Rs. 50,71,610.40/- & 20.12.2023	02-09-2024	Physical Possession

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: All that piece and parcel of property comprising of Flat No. G1, having super built-up area of 600 sq ft. on Ground Floor on Plot No. C-43, CAT-MIG situated at DLF Dlishad Extension-II, Village Brahmur Alias Bhaupura, Ghaziabad, Uttar Pradesh (201005).

Date : 06/09/2024 Place : DELHINCR Sd/ Authorized Officer, Edelweiss Asset Reconstructions Company Limited

TRITON CORP LIMITED
Regd. Office: R - 4, Unil 102, First Floor, Khirki Extension Main Road, Malviya Nagar, New Delhi- 110017
CIN: L74899DL1990PLC039989
Email: cs@tritoncorp.in / Phone: 011-49096562

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Triton Corp Limited ("the Company") will be held on Saturday, September 28, 2024 at 01.00 p.m. IST through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means ("VCOAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General circular no 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020 and subsequent circular issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/PICIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars") have granted the exemption regarding the requirement to send the physical copies of the annual report and notice of the meeting to Shareholders through the respective Circulars. Thus the Company has sent the Notice of the 34th AGM along with link for integrated Annual Report for the FY 2023-24 on Thursday, September 05, 2024 through Electronic mode to those Shareholders whose email address are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent ("Registrar") Depository Participants ("DPs").

The Notice of AGM along with Annual Report for the financial year 2023-2024 will also be made available on the website of the Company at www.tritoncorp.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com.

Remote E-Voting:

In compliance with Section 108 of The Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility of remote e-voting to be transacted at the AGM and for this purpose the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL").

Members can attend and participate in the AGM through the VCOAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM and other relevant details has been provided by the Company in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Accordingly, please note that, no provision has been made to attend and participate in the 34th AGM of the Company in person.

The remote e-voting facility shall commence on **Wednesday, September 25, 2024 from 9.00 a.m. (IST) and end on Friday, September 27, 2024 at 5.00 p.m. (IST)**. Those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to cast their e-vote during AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut Off Date i.e., **Saturday, 21st September 2024** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-off Date, may obtain the login-id and password for remote e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited at info@maserv.com.

M/s A.K. Choudhary & Associates, Practising Company Secretary (FRN- S2018DE538700), has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.
Book Closure:

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that the **Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Sunday, September 22, 2024 to Saturday, September 28, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

In case of any query/requirement pertaining to E-voting, please visit Help & FAQ's section of www.maserv.com or contact our RTA, M/s MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110 020, Contact No. 011-26387281/82/83 Fax- 011-26387384.

This information is being issued for the information and benefit of the members of the Company, in compliance with the relevant Circulars as referred hereinabove.

By order of the Board
For Triton Corp Limited
Sd/-
Meena Rastogi
(Chairperson)

Place: New Delhi
Date: 05.09.2024

MEHAJ TECHNOLOGY LIMITED
Registered office: B-40, Sudarshanpura Industrial Area (extension); Jaipur-302006, India
Corporate Office: Unit 708, 7th Floor, ECO Centre, Block- EM-4,
Sector-V, Salt Lake City Kolkata, West Bengal-700091
CIN: L74110RJ2013PLC066946, Tel: 033-46025842
Email: cs@mehaj.co.in, Website: www.mejahtech.co.in

NOTICE OF 11th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting of the Members of Mehaj Technology Limited will be held on **Thursday, 26th September, 2024 at 01:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable Circulars issued by SEBI and MCA Circulars No.20/2020 and 10/2022 dated May 5, 2020 and 28th December, 2022 and Circular no 09/2023 dated 25th September, 2023 respectively. The members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM. In Compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 inter alia comprises of Audited Standalone and Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024, together with the Reports of Board of Directors and Auditors thereon are being sent only through electronic mode to those Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.mejahtech.co.in, websites of the Stock Exchange i.e., www.bseindia.com and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e., www.evoting.nsdl.com.

Members who are holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the Company can obtain Notice of AGM, Annual Report, and/or login details for joining the AGM through the VC/OAVM facility, including e-voting, by sending necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to Company/ M/s Bigshare Services Private Limited (RTA) email id at ipo@bigshareonline.com. Those members who have not registered their e-mail addresses and mobile nos. may please contact and validate/update their details with the DP in case of shares held in demat form and members holding shares in physical form are requested to update the same with the Registrar and Share Transfer Agent or with the Company.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th September, 2024 to 26th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

The remote e-voting period commences on 23rd September, 2024 at 10:00 A.M., Monday and ends on 25th September, 2024 at 5 P.M., Sunday. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 19th September, 2024 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail address will be provided in the notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.mejahtech.co.in, and on the website of RTA email id ipo@bigshareonline.com and NSDL email id at www.evoting.nsdl.com

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting system, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Mehaj Technology Limited
Sd/-
Abhijeet Prasad
Company Secretary & Compliance Officer

Date : 04.09.2024
Place: Kolkata

ROCKINGDEALS CIRCULAR ECONOMY LIMITED
CIN: L29305DL2002PLC116354,
Regd. Office: Shop Kh No 424 Basement Ghitorni, Gadaipur, New Delhi, South West Delhi, DL- 110030 | Ph: +91-9212200000
Email: Compliance@rockingdeals.in; Website: www.rdcel.com

INFORMATION REGARDING 22nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Monday, the 30th Day of September, 2024 at 03:00 P.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read with General Circular 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022 and 11/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 respectively followed by general circular No.09/2023 dated September 25th, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/PICIR/2023/4 dated January 05, 2023 and followed by SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/PICIR/2023/167 dated October 07, 2023 all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of AGM alongwith the Annual Report for the Financial Year 2023-24 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached therewith will be sent only to those members whose e-mail id are registered with the Company/ Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.rdcel.com and at the websites of the stock exchanges i.e. www.nseindia.com and at the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <https://www.evoting.nsdl.com>.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote